

कर्म न लिखें सब

भारत सरकार से रजिस्टर्ड
RNI NO. UPBIL/2021/83001

वर्ष-04 अंक-23 मुरादाबाद,
14 May, 2024 (Tuesday)

मूल्य- 03 रुपये पृष्ठ-08

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीजीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ़, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ़ और उत्तराखंड

page 3

मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा

page 5

अफजाल अंसारी और बेटी नुसरत ने किया नामांकन

page 7

fomo and depression

रायबरेली में सीएम योगी बोले

राहुल वोट मांगते हैं रायबरेली से और समर्थन मिलता है पाकिस्तान से



● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में अपनी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को लोकसभा चुनाव में जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को खानपान की छूट देने वाली कांग्रेस को वोट न देना वरना राम जन्मभूमि का पुण्य पाप में बदल जाएगा।

कांग्रेस की नजर है। राहुल गांधी को आतंकियों से नहीं, हिंदुओं से डर लगता है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस व सपा का गठबंधन देश के लिए खतरनाक है। वे युवाओं की जोड़ी धोखेबाज है। वह कह रहे हैं कि जीतने तो मिलकर लूटें और हारने तो फिर छूटें। यह लोग देश-प्रदेश के साथ अन्याय करने आ रहे हैं। राहुल गांधी उर के बाहर प्रेक्ष और भारत के बाहर देश की निंदा करते हैं। 2010 में शूणीए सरकार के समय अमेरिका के अधिकारी से कहा था कि भारत के अंदर आईएसआई, मुस्लिम कट्टरपंथियों, आतंकियों से नहीं, हिंदुओं से डर है। हिंदुओं को बदनाम करने वाले राहुल हिंदुओं से वोट मांगते हैं। यह जाति के नाम पर लड़ाएगी, फिर आरक्षण को मुसलमानों में बंटवारा करेंगे। कांग्रेस को चेताया, गाय हमारी माता है-जनम जनम का नाता है सीएम ने कांग्रेस को खानपान की स्वतंत्रता की बात पर चेताया,

बोले कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भोजन एक ही है, लेकिन एक जगह उनके विचार बदल जाते हैं। वे जान लें कि गो हमारी माता है, जनम-जनम का नाता है। इसे काटोगे तो दो-दो हाथ हो जाएगा। कांग्रेस गौहत्या की छूट दे रही है। उन्होंने चेताया कि कांग्रेस के राम जन्मभूमि का पुण्य पाप में बदल जाएगा। सीएम ने अपील की कि कांग्रेस के इस पाप में नहीं पड़ना है। कांग्रेस देश के लिए खतरनाक खेलने जा रही है। देश उन्हें पहले ही बाहर का रस्ता दिखा चुका है। सीएम ने जनसभा से पहले बालेश्वर मंदिर में किया दर्शन-पूजन रायबरेली के सेरेनी में जनसभा से पहले योगी आदित्यनाथ बालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधिविधान से बाबा के दर्शन-पूजन किए। सीएम ने सुखी-समुझि उत्तर प्रदेश की कामना की तो बाबा से रायबरेली की जीत का भी आशीर्वाद लिया।



रायबरेली/लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने जिले के महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी दो माताएं हैं। एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी जिन्होंने मेरी रक्षा की है। मुझे सिखाया है रायबरेली मेरी दोनों माताओं की कर्मभूमि है। इसलिए मैं यहां चुनाव लड़ने आया हूँ।

● कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रायबरेली इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी मेरी दोनों माताओं की कर्मभूमि है।

राहुल ने कहा कि रायबरेली से हमारे परिवार का रिश्ता 100 साल पुराना है। यह चुनाव इतिहास का पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। भाजपा और आरएसएस संविधान की किताब फाड़ डालेंगे और गरीबों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि यह अडानी और अंबानी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इन दो लोगों के लिए ही संविधान की ध्वजियां उड़ाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी ने दस साल में 16 लाख करोड़ रुपये 22 अरबपतियों को दे दिया। यह पैसा 70 करोड़ लोगों को इनकम जितना है। यह लड़ाई गरीबों की रक्षा के लिए है। सरकार बनी तो हर महिला के खाते में प्रतिमाह 8500 रुपये भेजेगा। हर माह की पहली तारीख को खातापत्र पैसा खाते में गिरेगा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर हर युवा को अप्रेंटिसिप मिलेगा। इस तरह पहली नौकरी पक्की। पब्लिक सेक्टर हो या सरकारी विभाग सरकार बनते ही ठेकेदारी प्रथा बंद होगी। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनसभा में एक साथ दिखें। दोनों को एक साथ मंच पर देख भीड़ का उत्साह हिलोरे लेता दिखा। जनसभा के जरिए राहुल और प्रियंका ने भाजपा को ताकत का अहसास कराया।

फास्ट न्यूज

बंगलुरु के छह निजी अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली

बंगलुरु। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन अस्पतालों के परिसर में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। उन्होंने कहा, यह महज अफवाह थी। अस्पतालों को रविवार को भेजे गए ईमेल में दावा किया गया, मैंने आपकी इमारत में विस्फोटक लगाए दिए हैं। बंगलुरु के छह निजी अस्पतालों को ईमेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी दी गई लेकिन यह अफवाह निकली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने शहर के इन अस्पतालों में खोजी कुत्तों और बम निरोधक दल के साथ व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन अस्पतालों के परिसर में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। उन्होंने कहा, यह महज अफवाह थी। अस्पतालों को रविवार को भेजे गए ईमेल में दावा किया गया, मैंने आपकी इमारत में विस्फोटक लगाए दिए हैं। वे अगले कुछ घंटों में फट जाएंगे। आपके पास बम को निष्क्रिय करने के लिए कुछ ही घंटे हैं अन्यथा इमारत के अंदर निंदोषों का खून बहेगा।

सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं क्लास का रिजल्ट किया घोषित, 87.98 प्रतिशत स्टूडेंट्स हुए पास

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के सोमवार को घोषित 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम में 87.98 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और लड़कों के मुकाबले अधिक संख्या में लड़कियों ने बाजी मारी है। पिछले वर्ष 87.33 प्रतिशत विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। अधिकारियों ने कहा कि इस बार 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 91.52 प्रतिशत छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं और यह संख्या उत्तीर्ण हुए लड़कों की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक है। एक अधिकारी ने कहा, सीबीएसई के कक्षा 12वीं के नतीजों में कुल 24,068 विद्यार्थियों ने 95 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, वहीं 1,16,145 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी कहा

अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं तो हम पहना देंगे



मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी जनता के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है। विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि ये देश का चुनाव है, ये हिंदुस्तान का भविष्य तय करने का चुनाव है,

● विपक्षी नेताओं के बयान को लेकर मोदी ने कहा कि ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इन्हें रात को सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। ये इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। अरे भाई, पहना देंगे। उनको आटा भी चाहिए, बिजली भी नहीं है।

इन्हें रात को सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। ये इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। अरे भाई, पहना देंगे। उनको आटा भी चाहिए, बिजली भी नहीं है। अब हमको मालूम नहीं था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर और बिहार के लोगों ने दशकों तक

नक्सलवाद का जखम सहा है। पहले की सरकारों ने नक्सलवाद को पाला पोसा और उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल भी किया। अपराध और नक्सलवाद के कारण बिहार में उद्योग, धंधें सब चौपट हो गए। लालू यादव की राजद पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलराज की जिंदगी भयानक थी, डरावनी थी। आरजेडी के जंगलराज ने बिहार को कई दशक पीछे धकेल दिया था। ये उच्छ की सरकार है, जो बिहार से कानून व्यवस्था को पटरी पर लाई हैं, अब नक्सलवाद प्रभावित जिले भी तेजी से कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले महंगाई की स्थिति क्या थी? तब एक ही गाना चलता था- महंगाई डायन खाये जात है। तब महीने की 30 हजार की आमदनी पर कांग्रेस सरकार कहती थी टैक्स दो। आज मोदी ने ऐसा सुधार

किया है कि 50 हजार तक की आय पर आपको एक नया पैसा नहीं देना होगा। मुजफ्फरपुर में मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में एक छरू बल्ब 400 रुपये में आता था, मोदी ने इसकी कीमत घटाकर 40-50 रुपये कर दी। घर-घर सस्ता छरू बल्ब पहुंचाकर सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल में 20 हजार करोड़ रुपये बचाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली एक और योजना बनाई है। इस योजना से आपकी बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा। इस योजना का नाम है- पीएम सूर्यग्र मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आपको 75 हजार रुपये देगी। जितनी बिजली चाहिए, आप इस्तेमाल करें, बची हुई बिजली सरकार को बेच दो, यानी बिजली का बिल ज़ीरो और साथ में आमदनी भी।

अगर चार जून के बाद इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो मैं अगले दिन जेल से वापस आ जाऊंगा: केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वह पांच जून को तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। कथित दिल्ली आबकारी नीति चोटले से जुड़े एक धनशोधन मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। लोकसभा चुनाव के सातवें और साठवें दिन के मतदान होगा और मतगणना एक साथ चार जून को होगी। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि तिहाड़ में हिरासत के दौरान उन्हें अपमानित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने दावा किया, दृढातिहाड़ में मेरी कोठरी में दो सीसीटीवी कैमरे थे और 13 अधिकारी उनकी फीड पर नजर रख रहे थे। बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी दिया गया था। मोदी जी मुझे पर नजर रख रहे थे। मुझे पता नहीं कि मोदी जी को मुझसे क्या परेशानी है। केजरीवाल ने कहा, मुझे दो जून को जेल वापस जाना होगा। मैं जेल के अंदर चार जून को चुनाव परिणाम देखूंगा। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो पांच जून को मैं वापस आऊंगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को पार्टी के विधायकों से मुलाकात की थी।

अंतिम चरण के तहत एक जून को मतदान होगा और मतगणना एक साथ चार जून को होगी। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि तिहाड़ में हिरासत के दौरान उन्हें अपमानित करने के प्रयास किए गए। उन्होंने दावा किया, दृढातिहाड़ में मेरी कोठरी में दो सीसीटीवी कैमरे थे और 13 अधिकारी उनकी फीड पर नजर रख रहे थे। बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भी दिया गया था। मोदी जी मुझे पर नजर रख रहे थे। मुझे पता नहीं कि मोदी जी को मुझसे क्या परेशानी है। केजरीवाल ने कहा, मुझे दो जून को जेल वापस जाना होगा। मैं जेल के अंदर चार जून को चुनाव परिणाम देखूंगा। अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो पांच जून को मैं वापस आऊंगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को पार्टी के विधायकों से मुलाकात की थी।

कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना से महिलाओं की जिंदगी बदलने में मदद मिलेगी: सोनिया गांधी

नई दिल्ली। सोनिया गांधी ने कहा, कर्नाटक और तेलंगाना में पहले ही हमारी गार्डियों ने करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। चाहे मरेशा हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो या भोजन सुरक्षा... हमारी योजनाओं से करोड़ों भारतीयों को ताकत दी है। उनका कहना है, महालक्ष्मी योजना हमारे इस काम को आगे बढ़ाने की सबसे नई गारंटी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी की ओर से महालक्ष्मी योजना के रूप में दी गई गारंटी से देश की महिलाओं की जिंदगी बदलने में मदद मिलेगी। उन्होंने एक संदेश में यह भी कहा कि महिलाओं की मेहनत और तपस्या के साथ न्याय करने के लिए कांग्रेस ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है। सोनिया गांधी ने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज हमारी महिलाएं भयंकर महंगाई के बीच संकट का सामना कर रही हैं।

भाजपा प्रत्याशी माधवी लता ने मुस्लिम महिलाओं से चेहरा दिखाने को कहा, मामला दर्ज

हैदराबाद। हैदराबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उम्मीदवार माधवी लता का सोमवार सामने आने के बाद निर्वाचल अधिकारियों ने लता के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। वीडियो में लता मतदान केंद्र पर बुर्का पहनी महिलाओं से नकब हटाने और चेहरा दिखाने को कहती दिख रही हैं ताकि उनकी पहचान सत्यापित की जा सके। हैदराबाद के कलेक्टर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, मलकपेट थाने में भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (सी), 186, 505 (1) (सी) और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 132 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

कनाडा से अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसकी जांच हो सके: जयशंकर

मुंबई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निज्जर हत्या मामले पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि जब विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी की जाती है तो इसकी सूचना मूल देश की सरकार या दूतावास को दी जाती है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा की तरफ से की गई चौथी गिरफ्तारी पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत को इस मामले में कनाडा की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला, जिसपर एजेंसी जांच कर सके। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लिए तैयार है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा, रहम कनाडा की तरफ से कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिला, जो हमारी एजेंसियों द्वारा जांचने के योग्य हो। पिछले कुछ दिनों में इस मामले में हुए बदलाव को लेकर भरे पास जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जब विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी की जाती है तो इसकी सूचना मूल देश की सरकार या दूतावास को दी जाती है। 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे में गुरुनानक सिंह गुरुद्वारा के बाहर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके एक हफ्ते बाद चौथे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई।

हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 17 मई को सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कथित भूमि घोटाले से जुड़े घन शोधन के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देनी वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 17 मई तक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू में मामले की सुनवाई 20 मई को सूचीबद्ध की थी लेकिन

किसानों को दाम नहीं, नौजवानों को काम नहीं; ये इनकी विशेषता है: कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों को दाम नहीं, नौजवानों को काम नहीं, महिलाओं को मान नहीं और दलित आदिवासियों का सम्मान नहीं यह बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की वोटिंग आज की जा रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान में भारत की जनता को अपने भविष्य और सच्चाई के लिए वोट डालना है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसानों को दाम नहीं, नौजवानों को काम नहीं, महिलाओं को मान नहीं और दलित-आदिवासियों का सम्मान नहीं।

हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 17 मई को सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कथित भूमि घोटाले से जुड़े घन शोधन के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देनी वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से 17 मई तक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू में मामले की सुनवाई 20 मई को सूचीबद्ध की थी लेकिन

का शिकार होंगे, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 17 मई के लिए निर्धारित कर दी। सिब्वल ने सोरेन का पक्ष रखते हुए पीठ को बताया, "मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल के आदेश के हूबहू है और मुझे भी प्रचार अभियान के लिए जमानत की जरूरत है।" पीठ ने कहा कि इस सप्ताह बहुत ज्यादा काम है और बहुत से मामले सूचीबद्ध हैं। शीर्ष अदालत ने तारीख 20 मई से बदलने पर अनिच्छा जताई लेकिन सोरेन की ओर से पेश हुए सिब्वल और वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख को बदलकर 17 मई कर दिया गया। पीठ ने कहा, "हमें नहीं पता कि मामले पर सुनवाई हो पायेगी या नहीं लेकिन फिर भी हम इसे 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।"

Editorial

Pakistani military tightens grip

Wild card

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who had been under judicial custody for 50-odd days after the Enforcement Directorate named him in the multi-crore liquor scam, has made a wild card entry as a participant in electioneering. Known for his dynamic role as the Aam Aadmi Party (AAP) leader, his sudden release from incarceration injects a new fervour into an intense electoral situation, particularly impacting the BJP's strategies and reinvigorating the Opposition campaign. As expected, Kejriwal has come down heavily on the ruling party, accusing it of subverting democracy and misusing law-enforcement agencies to imprison the Opposition leaders on one pretext or the other. Interestingly, he also now claims that the BJP's senior leaders are being sidelined and India is being pushed into a "one nation, one leader" paradigm. The situation is indeed ominous for the BJP; Kejriwal's absence had provided it with a temporary advantage to consolidate its support base without facing the AAP challenge in certain regions where it holds influence and sway. Kejriwal's return, however, resumes the battle in earnest and necessitates a reassessment of campaign strategy. The BJP must now recalibrate its outreach efforts to counter AAP's influence, especially in Delhi, Punjab and Haryana (The polling in Gujarat has already concluded). The party poses significant challenge to the BJP with its anti-corruption and populist policies. Though he is not the proverbial all-powerful leader, Kejriwal has the ability to galvanise support, particularly among urban voters and the youth, and his presence significantly boosts the prospects of the Opposition's INDIA bloc. With the voting percentage remaining consistently low and several Supreme Court decisions going against it, the BJP must find new ways to take on its challengers. The party leaders have reached out to satraps Sharad Pawar and Uddhav Thackeray in Maharashtra ahead of Phase IV, but the latter have not responded positively to the BJP's overtures. In the light of these developments, the BJP must intensify its efforts to consolidate its support base and mitigate the potential impact of Kejriwal's resurgence. It must rely upon Modi's oratorical skills, aggressive campaigning, targeted messaging and new alliances to win in crucial constituencies. It is time for the BJP to capitalise on its nationalistic agenda and developmental initiatives to appeal to voters, presenting itself as the party best equipped to lead India forward. For the Opposition, Kejriwal's release offers hope and a renewed sense of purpose. By leveraging public dissatisfaction with the status quo, working to heighten the feeling of anti-incumbency among the electorate and raking up issues of public concern such as corruption, inflation and unemployment, the Opposition can cobble up a more cohesive and effective campaign. Given the unpredictable nature of voter preferences, it is hard to tell what resonates with them. They may act emotionally at times but they are not foolish, are they?

American scholar, Stephen Cohen, notes in his article title Pakistan: Army, Society and Security, "There are armies which guard their nation's borders, there are armies which are concerned with protecting their own position in society, and there are armies which defend a cause or an idea. The Pakistan Army does all three". Even though it is a Military that has never won any war (1947-48, 1965, 1971 or 1999) and is struggling miserably to contain elements of religious extremism from across the Durand Line - it remains the last institution that hasn't succumbed to the curse of puritanism that is eating into the already moth-eaten Pakistan. It can be argued that besides the Pakistani Military, the two other pieces of the ruling troika i.e., civilian politicians and the clergy, have failed the sovereign, far more. Counterintuitive as it sounds, the Pakistani 'establishment' (read, Military), despite all its manipulations is still the best bet to protect the Pakistani State from imploding. Despite

vile attempts by unhinged politicians and the clergy to fan divisive passions on the lines of sectarianism, regionalism, or



ethnicities - the disciplined and 'monolith' construct of the Pakistani Military inherited from the British Raj integrated its diversities in Balouch Regiment, Frontier Force Regiment, Punjab Regiment, Sindh Regiment et al. Few derelictions like General Zia-ul-Haq or Hamid Gul aside, the institution was relatively westernized, moderate, and inclusive. It zealously protected its ways and interests with disproportionate budgetary allocations and ensuring that it always had the right of the way, formally or informally. It chose dispensations without harbouring any ideo-

logical preferences and brazenly chose and dropped those who didn't toe the line. It didn't really care about optics of con-

tradition and shifting preferences, as it chose between the Bhuttos PPP (Pakistan People's Party) and Sharifs PML-N (Pakistan Muslim League - Nawaz) with impunity. In 2018, the 'establishment' tired of both the PPP and PML-N brought in and 'selected' Imran Khan's PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaaf) as the face of governance, even though the strings were pulled by the Generals from neighbouring Rawalpindi. But what they hadn't bargained for was the seriousness and immaturity with which the vain-glorious Pathan from Mianwali would start imagining his own

proless. Imran mistakenly thought he had outgrown the need to remain beholden to the Pakistan 'establishment', and that was to be his undoing. A reluctant, screaming, and shouting Imran Khan was ousted from power and the much discredited and familiar faces from the past, ushered in. It was an important lesson in Pakistani politics. When the tide turns, any political force that appeals to the Generals, can stage a comeback. Except perhaps Imran Khan, who dug his heels and refused to learn from history. His cadre perpetuated the 'May 9' riots and plunder that spared no one - not even the 'no-go' zones of cantonments or residences of Generals. The Pakistani 'establishment' did what it does better - care two-hoots for the popularity of Imran Khan and attacked his party, people and infrastructure. While Imran is arguably the most popular leader and the Bhuttos and Sharifs the most despised, it is the latter who are in power, courtesy the Pakistani Military. The obstinate Imran has boxed himself into a corner

by pivoting his credentials to grandstanding against the Pakistani Military, and that denies him the realistic chance to return. His only chance to succeed with his current strategy is the Pakistani Military were to become irrelevant, but such a hypothetical situation would also make the survival of Pakistan as a sovereign state, untenable. Faultlines deepen with the Military mouthpiece Inter Services Public Relations (ISPR) insisting that dialogue with PTI is only possible if it "earnestly apologises publicly in front of the nation". It added for good measure that PTI must adopt "constructive politics" and avoid, "politics of anarchy". Clearly it would be suicidal for PTI to stoop so low after much theatrical defiance and acceptance of its role would scar PTI with anarchial and unpatriotic attributions (as despite history, Pakistani Military remains the beacon of patriotism, in Pakistani consciousness). This showdown with railing words between the Military and PTI also counters the accusa-

tions of 'false-flag operation', as alluded to by the PTI. It seems the Pakistani Military is hell bent on making PTI and Imran pay dearly for daring to challenge the 'establishment', and this recent precondition for thawing relationship was meant to harden the divide and make it impossible for PTI/Imran to soften stand. As if on cue, the Pakistani Military is making efforts to normalise its relations with the historical ally, the United States of America (as the same was specifically targeted by Imran Khan). It also acts as a hedge against Chinese support, and it strengthens equations with Arab Sheikdoms, concurrently. As it is, the bloody battle ensuing currently for the Pakistani Military is with the Afghanistan based Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), on whom Imran Khan or 'Taliban Khan' was particularly accommodative. Clearly there is no upside for the Pakistani State to retain the belligerence and extremist stand as championed by Imran Khan in his hustings, and therefore all such policies, PTI infrastructure, and Imran Khan personally must become the sacrificial goat. Imran has none, but himself to blame for the same.

AMU breaks the gender barrier

Fortunately, Professor Naima Khatoon has been appointed as the Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, a moment long-awaited by the Aligarhian community. Professor Khatoon's journey within AMU has been extensive, having served previously as the Principal of the Women's College. Her association with the university spans an impressive 46 years, beginning as an outstanding student who consistently excelled in her examinations. Graduating with a doctorate in Psychology in 1989, Professor Khatoon's rise to the Vice Chancellorship on April 22, 2024, a testament to her dedication and academic prowess. An interesting facet of her appointment is the transition from her husband, Professor Muhammad Gulrez, who held the position of Acting Vice Chancellor prior. Professor Gulrez is recognised for his significant contributions to West Asian Studies and has displayed exemplary integrity and resilience during his tenure. Professor Khatoon's administrative journey within AMU includes noteworthy positions such as Chairperson of the Department of Psy-

chology and Director General, Superintendent, Pro-



and internationally. Her academic pursuits have taken her across the globe on various academic assignments, enriching her perspective and expertise. Beyond her scholarly achievements, Professor Khatoon's adeptness in administrative roles underscores her capability as a leader to steer AMU towards greater heights of excellence. Recognising in the evolving landscape of education, there is a pressing need to boost departments offering professional and technical education while also introducing emerging disciplines. Professor Khatoon's leadership is expected to facilitate the successful launch of these new programmes.

ing acclaim both nationally and internationally. Her

Additionally, there is a call to establish new centres for regional and area studies, building upon the foundation laid by previous leaders like Professor Abdul Aleem. Her strategic appointments, such as that of Professor Anwar Masud Alavi as Principal of the Women's College, reflect her commitment to academic excellence and diversity within the institution. It is anticipated that Professor Naima Khatoon will leverage the expertise of the internationally renowned scholar, Professor Abdur Raheem Kidwai, Honorary Director of the K. A. Nizami Centre for Quranic Studies. Professor Kidwai, besides being a Professor of English, has earned acclaim for his critiques on the translations of the Quran into English and other languages. The Department of Islamic Studies and the Faculty of Theology at AMU hold the potential to evolve into Think Tanks for Muslims worldwide. Aligarh Muslim University, known not only for its academic excellence but also as a centre of Muslim culture and Civilisation can reshape the narrative. Indian Muslim Members specialising in Islamic

Studies and Sunni and Shia theology dedicated to nation-building and community welfare. They are well-positioned to provide guidance grounded in scriptures and to serve as beacons of harmony and unity within the Indian Muslim community. The AMU Jama Masjid stands out as perhaps the only mosque, besides the Kaaba and the Prophet's mosque, where both Sunnis and Shias offer congregational prayers. This model of fraternity should be emulated across India. Nigerians should take the lead in promoting better understanding and unity among various schools of thought. Aligarhians take pride in the fact that the first educational institution to impart modern knowledge was established at Aligarh. The election of a Muslim woman as Vice Chancellor of AMU, following in the footsteps of Professor Najma Akhtar, underscores this legacy. Professor Naima Khatoon, who has recently assumed office, brings with her impeccable academic credentials and a commitment to faith. Her success will undoubtedly bring honour to AMU and our nation.

मुरादाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा

कार से बचाव में पेड़ से टकराया टैंकर, बैंक मैनेजर समेत तीन की मौत...वाहन काटकर निकाले शव



मुरादाबाद। कुंदरकी क्षेत्र में कार और टैंकर (कैम्पूल) की भिड़त में बैंक शाखा प्रबंधक समेत तीन बैंक कर्मियों की मौत हो गई है। बैंक कर्मियों का कार से बचाव में पेड़ से टकराया टैंकर, बैंक मैनेजर समेत तीन की मौत...वाहन काटकर निकाले शव

स्थित ग्राम डोमघर के पास हुआ है। मृतकों में एक्सिस बैंक शाखा प्रबंधक सोरभ श्रीवास्तव, कैशियर दिव्यांशु और कर्मि अमित हैं। इसमें शाखा प्रबंधक व कैशियर लखनऊ के निवासी हैं, जबकि अमित कुशलपुर मुरादाबाद के रहने वाले थे। घटना की जानकारी पाकर मौके पर एसपी देहात संदीप कुमार मीना पहुंचे हैं। हादसे के बाद चंदौसी हाईवे पर

पर जाम उत्पन्न हो गया है। पुलिस क्रेन की व्यवस्था कर क्षतिग्रस्त वाहनों को मार्ग से हटवाकर यातायात बहाल कराने में लगी है। उधर, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक, हादसा सुबह 8.40 बजे हुआ है। इसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक जीवित था जिसे इलाज के लिए एंबुलेंस से

जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। पुलिस कर्मियों ने बताया कि कार पर शाखा प्रबंधक समेत तीन बैंक कर्मि ही सवार थे। कार को सोरभ श्रीवास्तव ही चला रहे थे। हाईवे पर डोमघर गांव के सामने बंदर आ गया। जिसे बचाने के चक्कर में कार ने कट मारा और उधर सामने से आ रहे टैंकर (कैम्पूल) वाले ने

बचाव किया तो वह पेड़ में जा टकराया, जबकि कार टैंकर में जा घुसी। कार सवार तीनों बैंक कर्मि मुरादाबाद से ड्यूटी करने के लिए चंदौसी जा रहे थे। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया था। पुलिस कर्मियों ने क्रेन को बुलाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को मार्ग से बाहर किया और काफी मशकत कर जाम खाली कराकर यातायात बहाल कराया है।

बढ़ती गर्मी में यात्रियों को नहीं होगी पानी की किल्लत, उपलब्ध कराया जा रहा शीतल पेयजल



मुरादाबाद, गर्मी के मौसम में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को पीने के पानी के लिए परेशानी नहीं होगी। इसके लिए रेलवे ने रेल नीर की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर मंडल के स्टेशनों व ट्रेनों में स्वच्छ एवं शीतल जल उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर सभी स्टेशन व ट्रेनों में यात्रियों को बोटल बंद पानी के रूप से रेल नीर उपलब्ध कराया जाता है। गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। मौजूदा समय में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 10 हजार बोटलों की बिक्री हो रही है। जबकि

आने वाले दिनों में पानी की बोटलों की मांग और बढ़ेगी। जिसके लिए रेलवे प्रशासन ने रेल नीर की आपूर्ति बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों पर वाटर वेन्डिंग मशीनों में लगवाई गई है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि मंडल के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध पानी के टैप में समय से जल की उपलब्धता एवं पानी के टैप के आसपास विशेष साफ सफाई को निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है। पानी के टैप में निरंतर शीतल जल उपलब्ध हो इसके लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं। मंडल में पर्याप्त

वाटर कूलरों की व्यवस्था की गई है। ताकि यात्रियों को विलचिताती गर्मी से राहत मिल सके। सभी खान पान स्टाल, खान पान ट्रेली तथा भोजनालय में रेल नीर पानी की बोटल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जिससे रेल यात्रियों को कम कीमत में शीतल एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होता रहे। स्टेशनों पर वाटर वेन्डिंग मशीनों द्वारा कफायती दर पर स्वच्छ एवं शीतल जल उपलब्ध कराया जा रहा है। वाटर वेन्डिंग मशीनों द्वारा यात्री स्वयं भी आवश्यकतानुसार पेयजल ले सकते हैं। सीनियर डीसीएम ने बताया कि ट्रेनों के कोचों में भी निरंतर पानी की उपलब्धता के लिए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा (ओबीएचएस स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए गए हैं, जिसकी निरंतर निगरानी स्वयं अधिकारियों एवं कंट्रोल रूम द्वारा की जा रही है। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि मंडल के शौचालयों एवं वॉश बेसिन में पानी की उपलब्धता एवं प्रेशर की जांच के लिए, वाटर फिलिंग स्टेशनों एवं संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यात्री किसी भी समय अपनी रेल संबंधित समस्या के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 या रेल मदद एप की सहायता ले सकते हैं।

क्षमता से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु, प्रशासन ने दोपहर बाद जाने वाले यात्रियों को रास्ते में रोका

उत्तरकाशी: उत्तरकाशी जिला प्रशासन और पुलिस ने दोपहर बाद गंगोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को रास्ते में ही रोक दिया है। एसपी अर्पण



यदुवशी ने बताया कि जनपद मुख्यालय से करीब दो किमी आगे तेखला में गंगोत्री जाने वाले वाहनों को रोका गया है। इन वाहनों को इंद्रावती पुल और जोशियाड़ा के समीप पार्क कराया जा रहा है। गंगोत्री में यात्रियों की क्षमता एक दिन में 11 हजार शासन की ओर से प्रस्तावित है। जो यात्री गंगानानी और हर्षिल के बीच हैं, उन्हें गंगोत्री दर्शन के लिए भेजा जाएगा, लेकिन तेखला से आगे आज यात्रा वाहन नहीं जाएंगे।

रिजल्ट जारी, 11वें स्थान पर रहा देहरादून रीजन, छत्र यहां कर सकते हैं चेक

उत्तरकाशी: सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। छत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार कक्षा 12वीं में 87.98% बच्चे पास हुए हैं। छत्र सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स की आधिकारिक वेबसाइट 12r32r.लक्ष्मी.ल पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 12वीं देशभर के 17 रीजन में देहरादून रीजन 11वें स्थान पर रहा है। देहरादून रीजन का परिणाम 83.83 प्रतिशत रहा जो बीते वर्ष के मुकाबले तीन प्रतिशत तक बढ़ा है। सीबीएसई के देहरादून रीजन में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ जिले बदायूं, बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर व संभल शामिल हैं। बोर्ड के अधीन कई अटल उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी दूसरी बार बोर्ड परीक्षा दी है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत 91.52 रहा। जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 85.12 फीसदी रहा। लड़कों के मुकाबले 6.40 फीसदी ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। देश भर में त्रिवेन्द्रम सबसे आगे है। यहां का पास प्रतिशत 99.91 है।

उत्तराखंड की सौम्या चौहान ने किया देहरादून रीजन टॉप, पाए 99.4 फीसदी अंक

उत्तराखंड: सीबीएसई की ओर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड की सौम्या चौहान ने देहरादून रीजन टॉप किया है। सौम्या ने 99.4 फीसदी अंकों के साथ देहरादून रीजन टॉप किया है। सौम्या रुड़की के माउंट लिट्टा जी स्कूल की छात्रा हैं। सौम्या ने बताया कि वह पत्रकारिता के क्षेत्र के आगे बढ़ना चाहती हैं।

क्यों न लिखूं सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा
मो. 9027776991
RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अनुरूप उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

क्यों न लिखूं सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

शिक्षा विभाग... लापरवाही पर पांच सीईओ और 12 बीईओ के खिलाफ हुई कार्रवाई

देहरादून: पीएम श्री योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में उपस्थित



न होने पर समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने पांच सीईओ और 12 बीईओ के खिलाफ कार्रवाई की है। सभी 17 अधिकारियों को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। राज्य परियोजना निदेशक के मुताबिक, पीएम श्री केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के तहत प्रदेश के कई विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों में वे सुविधाएं दी जाएंगी। जिनकी स्कूल और बच्चों को जरूरत होती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने देहरादून में आयोजित कार्यशाला में न पहुंचकर लापरवाही की है। इससे उनकी विभागीय कार्य के प्रति उदासीनता का पता चलता है। राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा अंबादत्त बलोदी, मुख्य शिक्षा अधिकारी गोगेश्वर गर्जेंद्र सोन, मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल जगमोहन सोनी, मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ अशोक कुमार जुकारिया और मुख्य शिक्षा अधिकारी रुधमसिंह नगर कुंवर सिंह रावत को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। बीईओ सल्ल अल्मोड़ा हेंद्र शाह, बीईओ बाणेश्वर डीसी सती, बीईओ रामपुर हेमलता गौड़, खानपुर हरिद्वार अयाजुद्दीन, भीमताल नैनाल वैना, अमरसमुनि रुद्रय्याग अनुल सेमवाल, जाखण्णीधर टिहरी दमयंती रावत एवं बीईओ प्रतापनगर टिहरी पूनम चौहान को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

स्क्रेप की खरीद फरोख्त को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, एक-दूसरे पर एफआईआर

मुरादाबाद, दिल्ली रोड

झाड़व इन-24 होटल के पास रविवार दोपहर दो स्क्रेप व्यापारियों में स्क्रेप खरीदारी को लेकर पहले आपस में गाली गलौज हुआ, फिर जमकर मारपीट भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने पर ले आई। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस मामले में जांच के लिए सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस के मुताबिक, बिजनौर के मैसर्स शांति शुगर इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर अजय कुमार माहेश्वरी और गोरखपुर के मैसर्स ट्रिनिटी मेटल्स के प्रोप्राइटर अमरदीप गोयल के बीच मशीनरी, प्लांट और अन्य स्क्रेप की खरीदी को लेकर अनुबंध हुआ था। फिर कुछ समय बाद दोनों में अनुबंध की शर्तों को लेकर विवाद हो गया था। गोरखपुर के अमरदीप गोयल का कहना है कि रविवार को अजय कुमार माहेश्वरी ने

फोन करके उन्हें होटल झाड़व इन-24 के सामने बातचीत कर विवाद का निपटारा करने के लिए बुलाया था। अमरदीप दो माहेश्वरी और उनके साथ के लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। विरोध करने पर उन लोगों ने उनके मुंह में कपड़ा



साथियों को लेकर रविवार दोपहर होटल के बाहर पहुंचे थे, वहां अजय माहेश्वरी के साथ उनका कर कहने लगे अब तुम सामान और रुपये भूल कर चुपचाप गोरखपुर चले जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। अमरदीप ने बताया कि गनीमत रही मौके

दूसर कर गला दबाने की कोशिश की। जान से मारने की धमकी भी दी है। आरोपी उन्हें धमका कर कहने लगे अब तुम सामान और रुपये भूल कर चुपचाप गोरखपुर चले जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। अमरदीप ने बताया कि गनीमत रही मौके

प्रतिदिन पीएं ६-७ लीटर पानी, खाएं हल्का खाना...

भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सकों दे रहे सलाह

मुरादाबाद, बढ़ती गर्मी में बड़ी संख्या में लोग डायरिया, वायरल इन्फेक्शन, फूड पॉयजनिंग की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सकों ने लोगों को कुछ सावधानी बरतने की सलाह दी है। चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी में खान-पान का पूरा ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं। चिकित्सकों का कहना है कि अगर दिन में घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर आधा घंटे के बाद पानी पीते रहे और सिर को ढककर रखें। इसके अलावा बाहर का खाना बिलकुल न खाएं। मई में गर्मी पूरी तरह से अपने तेवर दिखा रही है। इस गर्मी में बरती गई लापरवाही से आपको वायरल इन्फेक्शन, फूड पॉयजनिंग या डायरिया से पीड़ित कर सकती है। चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी में बाहर का तला-मुना खाने से बचें। गर्मी में सावधानी न बरतने से लोग बीमार पड़ रहे

हैं। आने वाले दिनों में गर्मी व लू का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए आगे सावधानी बरतना जरूरी है। घर से बाहर निकलते समय शरीर को पूरी तरह ढककर निकलें। गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं। इसके अलावा ओआरएस व इलेक्ट्रॉल का भी सेवन जरूर करें। जो लोग गर्मी में धूप में काम के लिए घर से बाहर रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वह अपने साथ पानी की बोटल रखें। अच्छा होगा पानी में इलेक्ट्रॉल या ओआरएस मिलाकर पीएं। इससे शरीर में डीहाइड्रेशन नहीं होगा। बासी खाना व कटे-फटे फलों का न करें सेवन जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डॉ. एनके मिश्रा ने बताया कि गर्मी में ज्यादा तेज धूप होने पर बाहर न निकलें। अगर जरूरी है तो धूप में खुद को पूरी तरह से ढककर निकलें। सिर पर कपड़ा रखें। ज्यादा से ज्यादा पानी

पीएं। गर्मी में पानी की कमी से लू लगने की संभावना रहती है। बाहर का खाना बिलकुल न खाएं। बासी रखा हुआ खाना व

डॉ. इरशाद हुसैन ने बताया कि बढ़ती गर्मी में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। गर्मी लगने पर पंखे को बहुत तेज

में न जाने दें। जो लोग गर्मी में बाहर से आते हैं तो पंखे के नीचे या एसी में न बैठें। बच्चों को हल्का खाना खिलाएं और पानी देते रहें। मौसमी फल और सब्जियों का करें सेवन चिकित्सकों का कहना है कि गर्मी के दिनों खानपान पर विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसे फल और सब्जियों का सेवन करें जिनमें भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। जैसे- तरबूज, ककड़ी, खीरा, तोरई आदि। इसके अलावा इन दिनों रात के समय खिचड़ी और कढ़ी खाना भी फायदेमंद होता है। वहीं खाने में भी चीजें बदल-बदलकर खाने की कोशिश करें, जिससे शरीर को किसी भी पोषक तत्व की कमी का सामना न करना पड़े। कम खाएं, अच्छा खाएं चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी के मौसम में छछ, लस्सी, पनीर ले सकते हैं। गाय का दूध भी फायदेमंद है। इन दिनों ज्यादा भोजन



कटे-फटे फलों का सेवन न करें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। गर्मी से सीधे एसी में जाने से बचे चिकित्सक

करने या एसी की कूलिंग बढ़ाने की भूल न करें। इससे दिक्कत हो सकती है। बच्चे अगर स्कूल से आते हैं तो उन्हें तुरंत एसी

संक्षिप्त खबरें

कांग्रेस नेता लुईस खुर्शीद के बयान पर भाजपा राष्ट्रीय परिषद की सदस्य डॉ. रजनी सरिन का पलटवार

रिपोर्टर श्याम जी कश्यप जनपद फरुखाबाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता लुईस खुर्शीद के बयान पर भाजपा राष्ट्रीय



परिषद की सदस्य डॉ. रजनी सरिन का पलटवार। संविधान को खतरा बताने वालों की खुद की राजनैतिक विरासत खतरे में। भाजपा नेत्री डॉ रजनी सरिन बोली भारतीय संविधान को खतरे में बताने वालों की असली में खुद की राजनैतिक विरासत खतम होने की कगार पर भाजपा नेता डॉ रजनी सरिन ने लुईस खुर्शीद के बयान को बताया बेतुका। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मजबूत करने का भाजपा ने 10 साल में किया है काम भाजपा राष्ट्रीय परिषद की सदस्य डॉ रजनी सरिन ने मतदान के दिन को बताया लोकतंत्र का महापर्व। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके इस बार फिर पूर्व बहुमत की मोदी सरकार बनाने जा रही है। मामला फरुखाबाद लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ।

सपा प्रत्याशी डॉ नवल किशोर शाक्य का कायमगंज में भारी विरोध, वीडियो वायरल


फरुखाबाद ब्रेकिंग। डॉ नवल किशोर शाक्य के अस्पताल में इलाज कराने गए युवक ने सपा प्रत्याशी ऊपर लगाए गंभीर



आरोप इलाज के बाद टांके कटवाने के लिए डॉ नवल किशोर शाक्य के लक्ष्य हॉस्पिटल में युवक गया था पीड़ित युवक के पास हजार रुपए नहीं थे, युवक ने सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य से हजार रुपए न होने की लगाई थी गुहार डॉ नवल किशोर ने पीड़ित युवक व मरीज को 3 दिन तक अस्पताल के अंदर बैठाकर रखा सपा प्रत्याशी के अस्पताल में फ्री इलाज और गरीबों की मदद करने वाले जनता के बीच जाकर बयान देने वाला बयान हुआ झूठा साबित कायमगंज के लोगों ने कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किए वायरल - सूत्र पीड़ित युवक ने सरयं वीडियो बनाकर किया वायरल गरीबों का फ्री में इलाज करने और मदद करने की बात हुई झूठ साबित कायमगंज के पीड़ित युवक ने वीडियो वायरल का सपा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के ऊपर लगाए गंभीर आरोप।

सुनील कुमार दुबे चरैया के क्रेडिट कार्ड से लगभग 50000 रुपए की हुई उगी जिसकी रिपोर्ट थाना नादन देहात में की गई जिसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई

थाना नादन देहात पुलिस में सुनील कुमार द्विवेदी निवासी चरैया के शिकायत पर नादन देहात पुलिस ने लगभग 50000 रुपए की उगी पर अज्ञात व्यक्ति पर केश दर्ज किया था लेकिन आज तक उक्त केश के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। चरैया निवासी युवक सुनील कुमार दुबे ने बताया कि मुझे 8984232883 मोबाईल नंबर से बार बार कॉल करके परेशान किया जा रहा था एवं कुछ दिनों बाद दिनांक 09 मार्च 2024 को और 13 मार्च 2024 को सुनील कुमार दुबे का जीमेल हैक कर लिया गया और उसी दिन उनके क्रेडिट कार्ड से 49970 रुपए का फ्रॉड हो गया। जिसका उनके पास ना तो कोई मैसेज आया और ना ही कोई ओटीपी आया। सुनील कुमार दुबे ने बताया की उनका जीमेल 09 मार्च 24 को रियलमी ए2 फोन में हैक किया गया है। जिसकी जानकारी सुनील को दूर दूर तक नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब क्रेडिट कार्ड



डिपार्टमेंट से कॉल आया पेमेंट जमा करने को लेकर तब सुनील को इस बात की जानकारी हुई की उनके क्रेडिट कार्ड से 49970 रुपए का फ्रॉड हो गया है। सुनील का कहना है कि मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे निज निवास चरैया में रखा है जिसको मैंने आज दिनांक तक परेशान किया ही नहीं किया है। और मैं बाहर नौकरी करता हूँ। जब मैंने अपना क्रेडिट कार्ड जनरेट ही नहीं किया तो कैसे ट्रांजेक्शन करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। आगे बात करते हुए सुनील ने बताया कि बैंक से कॉल आने के बाद जब मैंने अपना बैंक स्टेट मेंट चेक किया तो उसमें 49970 रुपए का ट्रांजेक्शन दिखा रहा था। जिसके बाद मैं पुलिस थाना नादन देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगे सुनील ने बताया कि जिस नंबर से फोन करके परेशान किया जा रहा था टू कॉलर कि उसका नाम रुचि सिंह एचडीएफसी बैंक बता रहा था। और उसकी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकलने पर उसका लोकेशन गुडगांव बता रहा है।

भाजपाइयों ने ही , भिवंडी में उतर भारतियों की पिटाई कर दी इतना ही नहीं दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की

स्थान विरार बोरीवली रिपोर्टर। एस एस राजू उतर प्रदेश वालों की बेइज्जती तो महाराष्ट्र सरकार खासकर मनसे अक्सर करते रहते हैं। मगर चुनाव के दिनों में भी ऐसा हो यह कभी आशा नहीं थी कि सरकार के नरे जुड़े साथी मनसे ने पदकप. तमबजसल उत्तर प्रदेश वालों पर हमला कर दिया कि ठाणे में सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों से लोग आते हैं। मनसे हमेशा उतर भारतियों के खिलाफ ही रही है पिछले वर्ष दादर में उतर भारतियों की मनसे ने जमकर पिटाई की थी। कल, भाजपाइयों ने ही, भिवंडी में उतर भारतियों की पिटाई कर दी इतना ही नहीं दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की। ... बोरीवली के एक आटोरिक्षा वाले व अन्य वहां खड़े उतर भारतियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि यूपी में रहो तो (भदी गालियां देते हुए कहा) गंजा योगी टिकने नहीं देता और रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र आते हैं तो भाजपा मनसे के डंडे खाने पड़ते हैं हम जांए तो जांए कहाँ?अगर आवाज उठाई तो

हमें आतंकवादी बना कर जेल में ठूस देंगे!!! तो हमने पूछा कि भाजपा वाले तो हिन्दुत्व का ढोल पीटते हैं, आप भी हिन्दू वे भी हिन्दू तो करता है तो जवाब मिला यह सब भाजपा की प्चुनावी चाल है ये सबके सब मजदूर वर्ग के दुश्मन हैं... बस हमें जवाब मिल गया था कि भाजपा की असलियत व नजरिया क्या है??? महाराष्ट्र में, मुसलमानों - हिन्दुओं में दूषित हवा फैलाने में फेल हो जाने के बाद उतर भारतीयों को यहां से भगाने की योजना बन रही है हिन्दू-मुस्लिम- लड़ाने का फार्मूला फेल हो गया है। अब भैय्या लोग संभल के रहें वैसे भी भाजी विक्रेता भैय्या लोगों को, बंबई से विरार व अन्य जगहों पर, परेशान किया जाता है जब हमने पूछा कि आप भगवान राम व हनुमान जी का सहारा क्यों नहीं लेते तो सब हंस पड़े और कहा कि अंकल आप तो सब जानते हैं!!! खैर, अब भाजपा मनसे को साथ लेकर बंबई में कोई गड़बड़ी करवा/ कर सकती है सावधान

शामली में पेट्रोल पंप पर पानी मिला तेल देने का आरोप, ग्रामीणों का हंगामा

क्यों न लिखूं सच राकेश गुप्ता शामली। चौसाना के जिजौला में स्थित पेट्रोल पंप पर शंकर, सुनील, अबरार, रहमान, महताब, मुरसलीन, जुनैद व भूरा ने बाइकों



में तेल लिया। आरोप है कि पंप से कुछ दूर चलने के बाद ही वाहन बंद हो गए। मैकेनिक को वाहन चेक कराए तो बताया गया कि पेट्रोल में पानी मिला हुआ है। लोगों ने मैकेनिक से टंकी का तेल बोटल में निकलवाया और पेट्रोल पंप पर पहुंचे। शिकायत करने पर संचालक ने अभद्रता की तो लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा किया। उपभोक्ताओं ने एसडीएम को शिकायत कर जांच की मांग की है। संचालक शाहिद राणा ने पेट्रोल में पानी मिला होने के आरोपों का नकारा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को मौके पर दूसरा तेल निकालकर दिखाया गया है, जिसमें पानी नहीं था। वहीं, प्रदर्शन करने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि हमने पेट्रोल पंप पर शिकायत पुस्तिका की मांग की थी। लेकिन संचालक ने बदसलूकी की और जो होगा कर लेना की धमकी देकर उन्हें भगा दिया। प्रदेश में पूर्व पर पेट्रोल पंप पर नोजल की जांच की गई जिसमें एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। जिसमें पाया गया था कि मीटर रीडिंग व वाहनों में भरे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा कम दी जाती थी। लेकिन समय बीतने के बाद जांच आदि सभी बंद हो गई है। पंपों पर तेल और नोजल की जांच नहीं होती।

देहरादून रीजन में बेटियों ने फिर मारी बाजी, इतना रहा पासिंग परसेंटेज

देहरादून ब्यूरो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से कक्षा 12वीं और 10वीं का परिणाम शुक्रवार को घोषित किया। इसके साथ ही सीबीएसई छात्रों के रिजल्ट का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया। इस साल बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी। 12वीं में लड़कों की तुलना में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 7.9 फीसदी ज्यादा रहा। जबकि 10वीं में भी लड़कों की तुलना में लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 3.9 फीसदी ज्यादा रहा। सीबीएसई के देहरादून रीजन में उत्तराखंड के सभी 13 और उत्तरप्रदेश के आठ जिलों के घोषित किया गया। रीजन में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 92682

के लिए 100702 छात्रों ने पंजीकरण किया था। इसमें से 100075 छात्रों ने परीक्षा दी। जिसका पासिंग प्रतिशत 90.97 फीसदी रहा। सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी गोपाल दत्त ने परीक्षा में पास हुए सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि बोर्ड परिणाम बनाने में पूरी पारदर्शिता एवं गाइडलाइन का पालन किया गया। बोर्ड ने इस साल भी मरिट लिस्ट जारी नहीं की। छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए सीबीएसई की ओर से बीते साल से मरिट लिस्ट जारी नहीं करने का फैसला लिया गया। छात्रों ने पंजीकरण किया। इसमें से 91636 छात्रों ने परीक्षा दी। इसके साथ ही 12वीं का पासिंग प्रतिशत 83.82 फीसदी रहा। वहीं, 10वीं की बोर्ड परीक्षा



मंडल ने किया मॉडल महाविद्यालय का निरीक्षण

देहरादून ब्यूरो। राजकीय मॉडल महाविद्यालय मीठीबेरी (हरिद्वार) का सत्र 2024-25 के लिए श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ओर से गठित निरीक्षण मंडल ने स्थलीय एवं भौतिक निरीक्षण किया। शनिवार को आठ विषयों में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृत विषयों में अस्थायी संबद्धता विस्तारण के लिए निरीक्षण दल के संयोजक एवं सदस्यों ने महाविद्यालय का जायजा लिया। टीम ने पुस्तकालय, शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, कार्यालय एवं मीठीबेरी में निर्माणाधीन भवन आदि सभी संसाधनों को देखा। निरीक्षण के दौरान सभी सदस्यों की ओर से संतोष व्यक्त किया गया। संयोजक के रूप में प्रोफेसर दुर्गा कांत प्रसाद चौधरी व सदस्यों में प्रो. कल्पना पंत, प्रो. दिनेश शुक्ला, डॉ. अरुणिमा, डॉ. जुनीष कुमार, डॉ. अशोक मँदोला, डॉ. शैफाली शुक्ला, डॉ. सुनीता नौटियाल, केशव लाल आर्य आदि रहे। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. अर्चना गौतम ने निरीक्षण में आई टीम का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की अस्थायी संबद्धता समिति के संयोजक डॉ. सुनील कुमार, प्रो. सतेंद्र कुमार, डॉ. अरविंद वर्मा, डॉ. कुलदीप चौधरी, डॉ. सुनीता बिष्ट, डॉ. सुमन पांडेय, डॉ. लक्ष्मी मनराल, शशिधर उनियाल, पूनम सिंह, कुलदीप, सूरज अदि मौजूद रहे।

हरदुआगंज पुलिस ने मोबाइल चोरी के शक में नाबालिगों को हिरासत में रखा

लवकुश ठाकुर क्यों ना लिखूं सच अलीगढ़ हरदुआगंज। शादी समारोह में हुए मोबाइल चोरी के शक में पुलिस ने दो बालकों को पुलिस ने दिनभर हिरासत में बैठाए रखा। बच्चे व उनके अभिभावक चोरी से इंकार करते रहे। दोनों बालक पुलिस हिरासत में ही थे। कस्बा के बुढासी रोड पर पुरानी बगीची के पास एक शादी समारोह था, जिसमें एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हो गया। समारोह में मौजूद 12 वर्षीय दो बालकों पर लोगों का शक गया तो सुबह पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। देर तक दोनों बालक थाने के मुंशी कक्ष में हवालाते के गेट पर बैठे रहे। जबकि बालकों के परिजन बच्चों को निर्दोष बताकर गुहार लगा रहे थे। मामलों में अधिवक्ता महान प्रताप सिंह का कहना है कि उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश है कि किसी नाबालिग को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। एसओ रवि चंद्रवाल ने बताया कि बच्चों से पूछताछ कर मोबाइल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस ने पीड़ित की नहीं सुनी, कोतवाली परिसर में खुद पर उड़ेल लिया डीजल

लवकुश ठाकुर क्यों ना लिखूं सच अलीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट युवक ने कोतवाली परिसर में अपने ऊपर डीजल डाल लिया। खुद को आग लगाने लगा। दृश्य देख मोके पर खलबली मच गई। युवक को ऐसा करने से रोका, समझा बुझाकर उसे घर वापस भेजा। पीड़ित पक्ष के अनुसार, 7 मई को विद्यालय के लिए आई एक छात्रा रास्ते से ही गुम हो गई। घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। छात्रा के पिता ने थाने आकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। दो दिन बाद पुलिस तपतीश को घर पहुंची तो परिजनों ने दो युवकों के नाम पुलिस को बताते हुए एक और तहरीर दे दी गई। 12 मई तक छात्रा का कोई पता नहीं चला तो परिजन कोतवाली आ गए और पुलिस से छात्रा को बरामद करने के लिए कहने लगे। आरोप है कि काफी देर तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। सुनवाई के लिए बार-बार मिन्नत करने पर फटकार लगा दी। जिससे झुब्द छात्रा के चाचा ने डीजल की कैन अपनी ऊपर उड़ेल ली। खुद को आग के हवाले करने का प्रयास करने लगा। इसे कोतवाली में हडकंप मच गया। पुलिसकर्मी तत्काल उसे मनाने में लग गए। युवक सहित परिवार के अन्य सदस्यों को मनाने में जुट गए।

अंधभक्त अपने स्कूटर को ही मंदिर ले आए

अक्सर लोग अपने नए जन्मे शिशु को (खासकर जब बात बेटे की हो) मंदिर में लाते हैं मगर यहां पर वसई के एक अंधभक्त अपने स्कूटर को ही मंदिर ले आए, पंडित से पूजा करवाई, नारीयल फोड़ा, नारीयल का पानी स्कूटर पर डाला प्रसाद बांटा.... तब मैंने पूछा क्या ऐसा करने से एकसीडेंट नहीं होगा? तो मालिकन लड़की बोली, यह तो भगवान ही जाने! तब इस संवाददाता ने पूछा कि एकसीडेंट से पहले जब सबकुछ भगवान जानता है तो यह पूजा क्यों?? इसका कोई जवाब नहीं था और वह स्कूटर स्टार्ट करके चल दिए..... ऐसे लोगों से देश में किसी बदलाव की क्या आशा रखी जा सकती है? जब, किसको मत दोगे? पूछा तो जवाब मिला 4 जून को खुद जवाब मिल जाएगा।



जनप्रतिनिधियों के बच्चों ने अब्बल नम्बर से पास की परीक्षा, डाक्टर बनकर करेंगे देश सेवा

रिठौरा। सोमवार को सीबीएससी बोर्ड का परीक्षाफल घोषित हुआ तो परिणाम अति सुन्दर आए ग्राम पंचायत खाईखेड़ा के पूर्व प्रधान इदरीश, इशरत बी के बेटे अय्यान ने 95प्रतिशत अंक लाकर मां-बाप के सपनों को साकार किया। वहीं नगर के मोहल्ला इन्द्रपुरी के पूर्व सभासद दम्पति अब्दुल हलीम उर्फ गरीब अहमद, रेशमा बेगम के बेटे अलतमस के बेटे ने भी हाईस्कूल की परीक्षा में 88 प्रतिशत अंक लाकर परिजनों एवं शिक्षकों का मान बढ़ाया है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी समाज को एक संदेश दिया है। सब पढ़ें सब बढ़े। दोनों बच्चे डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। शिक्षक प्रदीप कुमार गुप्ता, डॉक्टर अल्ताफ अंसारी, डाक्टर नाजिया, पूर्व सभासद सलीम, सहित तमाम लोगों ने बच्चों को मिठाई खिलाकर मुबाबाद दी है।

नगर परिषद ककरहटी हुई बे परबाह दिन में जलती स्ट्रीट लाइट'

'क्यों ना लिखूं सच ककरहटी से घनश्याम प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट नगर परिषद ककरहटी किन्ही ना किन्ही कारणों से सुर्खियों में रहती है इस बार नगर की स्ट्रीट लाइट रात में तो जलती ही है



लेकिन दिन में भी बंद नहीं होती है जिसका असर सीधे तौर पर जनता पर पड़ता है जो जनता से प्राकाश कर के रूप में लगता है।

यातायात नियमों को पुलिसकर्मी का ठेगा: सिर पर हेलमेट नहीं, बाइक चलाते समय

मोबाइल से कर रहा बात

लवकुश ठाकुर क्यों ना लिखूं सच अलीगढ़ बिना हेलमेट के बाइक पर मोबाइल से बात करते हुए पुलिसकर्मी हर चौराहे पर जनता को कानून का पाठ पढ़ाते हुए मिल जाते हैं। पर खुद धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन करने से भी नहीं डरते हैं। शहर के रामघाट रोड पर क्वार्सी चौराहा से पहले एक बाइक सवार पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया है। जिसमें उसके सिर पर हेलमेट नहीं है। वह बाइक चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी यूपी 83 एएल 6241 नंबर की बाइक पर है। वह रामघाट रोड पर पीएसी की ओर से क्वार्सी चौराहे की तरफ जा रहा है।

अफजाल अंसारी और बेटी नुसरत ने किया नामांकन

उधर हाईकोर्ट में सजा पर टली सुनवाई



गाजीपुर। अफजाल अंसारी के नामांकन को लेकर सोमवार की सुबह से समर्थक तैयारी में जुटे रहे। अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नामांकन करने पहुंचे हैं। उधर हे कोर्ट में अफजाल की सजा को लेकर

आज सुनवाई टल गई है। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी कलेक्ट्रेट पहुंच नामांकन कर दिया है। प्रस्तावकों के साथ अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी पहले

नामांकन करने पहुंचीं। इसके बाद अफजाल अंसारी अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुंचे। गाजीपुर लोकसभा सीट पर इस बार रोचक चुनाव होगा। एक जून को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। सपा से अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी के नाम चार-चार सेट में नामांकन प्रपत्र खरीदा गया है और आज अफजाल अंसारी नामांकन भी कर रहे हैं। उधर, सोमवार को अफजाल अंसारी के मामले में सुनवाई टल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे में बहस के दौरान अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी,

विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था। गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर मामले में उन्हें दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति पर नामांकन के पहले ही दिन अफजाल अंसारी और उनकी बेटी नुसरत अंसारी के नाम पर चार-चार सेट में पचां खरीदा गया है और

आज वे नामांकन भी करेंगे। हालांकि अफजाल अंसारी ने बीते दिनों दावा किया था कि 99.99 प्रतिशत उनका मामला फीट है, फैसला उनके पक्ष में आने की संभावना है। अब तक भाजपा एवं बसपा प्रत्याशी की ओर से पचां भरा जा चुका है। चौथे दिन तक कुल 12 उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन किया जा चुका है। जबकि 30 ने नामांकन पत्र लिया है। मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन है। जबकि यह प्रक्रिया 17 मई को संपन्न होगी। 75 गाजीपुर संसदीय सीट के लिए कराए जा रहे इस चुनाव का मतदान एक जून को कराया जाएगा। जबकि मतों की गणना चार जून को होगी।

करंट लगने से युवक की मौत, चालू कूलर में पानी भरते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा; मचा कोहराम

सोनभद्र। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के रेहटा वार्ड में सोमवार को करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। कूलर में पानी भरने के दौरान युवक करंट की चपेट में आ गया। घटना से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। नगर के वार्ड नंबर एक रेहटा निवासी देवेंद्र कुमार (40) सोमवार को चालू कूलर में पानी भर रहा था। अचानक कूलर में करंट आ गया। उसकी चपेट में आने से देवेंद्र कुमार अचेत होकर गिर पड़ा। परिजनों ने जब उसे अचेत अवस्था में देखा तो तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल में ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे अत्यंत्र रेफर कर दिया। परिजन उसे नेहरू अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। देवेंद्र कोल खदान की एक ट्रंसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था। उससे एक आठ साल की बेटी है। वह छह भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी मौत के बाद पत्नी और मां का रो-रोकर बुरा हाल है।



खेलते समय तालाब में डूबने से पांच साल के मासूम की मौत, रात भर ढूँढता रहा परिवार

सोनभद्र। सोनभद्र जिले में खेलते समय बच्चा तालाब में डूब गया। घरवाले पूरी रात उसकी तलाश करते रहे। सोमवार की सुबह जब उसका शव जब तालाब में मिला तो परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रॉबर्टसगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदुआरी चौकी के बकाही गांव में खेलते हुए तालाब में डूबने से पांच वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सोमवार की सुबह तालाब में शव ऊपर आने के बाद घरवालों को जानकारी हुई। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। यह है मामला हिन्दुआरी चौकी क्षेत्र के बकाही गांव निवासी संजय कुमार का पुत्र आर्या (05) रविवार की शाम घर के बाहर खेल रहा था। परिवार के लोग खेत की ओर गए थे। खेलते हुए आर्या घर के पास स्थित तालाब तक पहुंच गया और उसमें गिर गया। देर शाम परिजन घर लौटे तो बच्चे को न पाकर उसकी तलाश शुरू की। पूरी रात खोजबीन जारी रही। सुबह बच्चे का शव तालाब में देख परिजन हौरान रह गए। ग्राम प्रधान अमरेश कुमार ने बताया कि बताया कि पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

मातृ दिवस पर 24 लोगों ने किया रक्तदान

कुशीनगर। नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान की ओर से रविवार को मातृ दिवस पर अहिंसे बाजार चौराहे के पंचायत भवन पर सैचिक्क रक्तदान शिविर लगा। शिविर में 24 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर के अग्रेजी विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रो प्रशिला शैम ने किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी व्यक्ति को जीवन दान मिलता है। उन्होंने रक्तदानियों का उत्साहवर्धन किया। शिविर में 24 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। सभी को अंगवस्त्र, पौधा व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। रक्तदानियों को ब्लड बैंक से डोनर कार्ड दिया गया। जरूरत पड़ने पर उन्हें 3 माह के अंदर रक्त मुहैया कराया जाएगा। रक्त संग्रह का कार्य कुशीनगर और गोरखपुर के सरकारी ब्लड बैंक की टीम ने किया। एजाज अहमद, विध्यवासिनी पांडेय, रिंकी यादव, राम विनोद सिंह, नीतीश कुमार आदि शामिल रहे। नयी दिशा सचिव डॉ. हरिओम मिश्र ने आभार जताया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सतवंत यादव, ग्राम प्रधान डिंपल पांडेय, पूर्व प्रधान जेपी यादव, मुस्तफा खां, नरेंद्र नाथ त्रिपाठी, रागिनी पांडेय, ममता कश्यप, मिथिलेश सिंह, राधेश्याम गौड़, शिव कुमार पांडेय, देवानंद गौड़, अवधेश गौड़, कौशल जायसवाल, रमाकांत मिश्र, अमन जायसवाल, लखन आदि मौजूद रहे। इन लोगों ने किया रक्तदान सत्येंद्र कुमार मिश्र, अभिषेक शर्मा, संतोष राव, रंजीत राय, दुर्गेश तिवारी, शिवेंद्र राय, कानूनगो हरि शंकर सिंह, परवेज अहमद सिद्दीकी, अनूप कुमार, अभिषेक श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार मिश्र, जितेंद्र गुप्ता, बजरंगी कुमार, शैलेन्द्र कुमार सिंह, इम्टेयाज अहमद, खुशाल आलम, विवेक चंद्र पाल, संतोष कुमार दुबे, सीए अंजनी नंदन सिंह, नीतीश कुमार, कृष्ण मोहन, अमित शर्मा, नयी दिशा उपाध्यक्ष इंद्र कुमार मिश्र, अभिषेक कुमार पांडेय शामिल रहे।

जागी नगर पालिका, नालों से स्लैब तोड़कर सफाई शुरू

संतकबीरनगर। नगर पालिका ने नालों की सफाई शुरू कर दी है। रविवार को पालिका कर्मियों ने नालों पर लगे स्लैब को तोड़कर सफाई शुरू की। लोगों को खुद स्लैब हटवाने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि नालों से कब्जा हटा लें, अन्यथा नगर पालिका स्लैब तोड़कर सफाई करेगी। यह अभियान 20 दिन तक चलेगा। ने 11 मई के अंक में नाले पर अतिक्रमण से नहीं हो रही सफाई, बरसात में होगा जलभराव तो होगी परेशानी शीर्षक से नाले की सफाई की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसे संज्ञान में लेकर रविवार को पालिका प्रशासन सक्रिय नजर आया। गोला बाजार में नालों पर बने स्लैब को तोड़कर सफाई का कार्य शुरू किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने नाले पर बने चतुर्भुज को हटाया और पोलैट्रड मशीन लगाकर नालों की सफाई की। पालिका प्रशासन ने इस दौरान लोगों को चेतावनी दी कि खुद ही नालों से अतिक्रमण हटा लें नहीं तो स्लैब तोड़कर साफ-सफाई की जाएगी। उन्मुक्त के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। मानसून आने से पूर्व ही शहर के नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए अभियान शुरू किया गया है, जो 20 दिन तक चलेगा। इससे जलभराव की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा बनियावारी से खुदवा तक नाले का निर्माण भी कराया जा रहा है।

दो युवकों की मौत, चार घायल, बिलख पड़े परिजन; बाइक पर सवार थे तीन-तीन लोग

सोनभद्र। सोनभद्र में हुए दो हादसों के बाद मृत युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर तीन सवारी करने के लिए उन्हें कई बार मना किया गया था। सोमवार को हुए दर्दनाक हादसों में चार युवक घायल भी हुए हैं। गंभीर रूप से घायल दो युवकों इलाज जारी है। सोनभद्र के अलग-अलग क्षेत्रों में सोमवार को हुए सड़क हादसों में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। दुद्धी के मनबसा में पर सड़क पर अचानक सामने कुत्ता आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई तो करमा के भरकवाह गांव में बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दोनों घटनाओं में बाइक पर तीन-तीन लोग

सवार थे। पहली घटना दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के झारोकला गांव में सुबह घर लौट रहे थे। मनबसा गांव के पास सड़क पर अचानक कुत्ता आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। आसपास के लोगों की मदद से उन्हें म्योरपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कौशल किशोर



गाजीपुर में आंधी से गिरा पीपल का पेड़, दबने से पूर्व प्रधान की मौत; छह लोग घायल

गाजीपुर। गाजीपुर जिले में आंधी से पीपल का पेड़ गिर गया, जिसमें दबने से पूर्व प्रधान की मौत हो गई। जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए। घटना के समय सभी लोग झोपड़ी के पास बैठे हुए थे। गाजीपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र के चितवनपट्टी गांव में रविवार की शाम आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इस दौरान आंधी से एक पीपल का पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे दबने से पूर्व प्रधान की मौत हो गई। वहीं, बीडीसी सहित छह घायल लोग हो गए। यह है मामला चितवनपट्टी गांव के पूर्व प्रधान शंभू यादव (52) मकान के बाहर झोपड़ी के पास कुछ लोगों के साथ बैठे थे। इसी बीच अचानक तेज हवा के साथ आंधी आ गई। इससे पीपल का पेड़ उखड़कर झोपड़ी पर गिर गया। पेड़ के नीचे दबने से पूर्व प्रधान शंभू यादव की मौत हो गई। हादसे में क्षेत्र पंचायत सदस्य शिव मंगल यादव (45), सगीना यादव (60), अनुरुद्ध यादव (65), राजेश यादव (27), दो अज्ञात लड़की घायल हो गईं। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल कोतवाली में दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया।

बैंक कैशियर को दिनदहाड़े मारी गोली

वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बाइक सवार

मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बाइक चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर सवार बदमाशों ने बैंक कैशियर को गोली मार दी। पीछे से गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आनन-फानन घायल बैंक कैशियर को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर को बैंक जाते समय रास्ते में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। आनन-फानन राहगीरों की मदद से कैशियर को सीएससी में भर्ती कराया गया। जहां स्थिति गंभीर देख

सूर्यनाथ यादव (55) पुत्र किशुन यादव सोमवार की सुबह अपने घर रसुलपुर से बाइक से मधुबन बैंक आ रहे थे। जैसे ही मधुबन-दोहरीघाट मार्ग स्थित कटघरा महलु गांव के गेट के समीप पहुंचे कि पीछे से बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कैशियर को गोली मार दी। गोली लगते ही कैशियर सड़क पर गिरकर लहलुहान हो गया। यह देख राहगीरों ने आनन-फानन पुलिस को सूचना दिया और कैशियर को घायल अवस्था में फतहपुर मंडाव में भर्ती कराया। जहां स्थिति को गंभीर देख चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई।



खेलते समय सड़क पर पहुंचा मासूम, डंपर ने रौंदा, मौत

रोसयाबाजार। धनघटा क्षेत्र के राम जानकी मार्ग स्थित खरचा गांव के पास रविवार की शाम को तीन वर्षीय मासूम खेलते समय सड़क पर पहुंच गया। उसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने बच्चे को रौंद दिया। जिसमें मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों को डंपर का रोक दिया था। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। खरचा गांव निवासी दीपक तिवारी का तीन वर्षीय बेटा देवांश रविवार की शाम को सड़क के किनारे घर के दरवाजे पर बाबा ज्वाला प्रसाद तिवारी के साथ खेल रहा था। उसी समय अचानक सड़क पर चला गयाराम जानकी मार्ग पर तेज गति से आ रहे डंपर ने मासूम को चपेट में ले लिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तत्काल बच्चे को निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने देखते ही देवांश को मृत घोषित कर दिया। इकलौते बच्चे कि मौत पर मां रश्मि देवी रहकर बेहोश हो जा रही हैं। वहीं देवांश के बाबा ज्वाला प्रसाद, पिता दीपक का रो-रो कर बुरा हाल है। लोगों ने डंपर चालक को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने चालक को पकड़कर थाने भेजा। साथ ही वाहन को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोग परिजनों को सात्वना दे रहे हैं।

नगर पालिका ने बस अड्डा के लिए जमीन देने की पेशकश

संतकबीरनगर। शहर में बस अड्डा बनाए जाने के लिए नगर पालिका परिषद खलीलाबाद ने जमीन देने की पेशकश की है। रपिवहन निगम के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी है। अब तक प्रशासन के जरिए बस अड्डा को मीरगंज में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है, जो शहर से लगभग सात किलोमीटर दूरी पर है। जिले में परिवहन निगम का बस स्टेशन न होने के कारण रोडवेज की बसें मेंहदावल बाईपास पर सवारी भरती हैं। यहां पर यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। सड़क पर खड़े होकर वाहन का इंतजार करते हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने पहल की और मीरगंज में रोडवेज बस अड्डा के लिए जमीन का चिह्नकन किया। अभी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने का कार्य चल रहा है। चुनाव की वजह से मामला ठप है। इधर नगर पालिका के चेयरमैन जगत जायसवाल ने परिवहन निगम के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जनता के आवागमन के लिए कोई भी बस स्टेशन नहीं है। शहर के डीघा से सरैया बाईपास के बीच किसी भी स्थान पर बस स्टेशन की आवश्यकता है। यहां सभी कार्यालय व महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

अपहता बरामद, आरोपी गिरफ्तार

संतकबीरनगर। पुलिस टीम ने एक अपहता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। धनघटा पुलिस ने अपहरण के मामले में वांछित साबिर अली पुत्र नसरुल्लाह निवासी नेतवापुर थाना धनघटा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके संबंध में वादिनी ने तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया था। थाना धनघटा पुलिस ने अपहता को बरामद करते हुए आरोपी साबिर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

सक्षिप्त समाचार

50 हजार का इनामी मुठभेड़ में घायल

आजमगढ़। पुलिस ने रविवार की देर रात फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी अपराधी को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ा गया अपराधी डी-34 गिरोह का सदस्य व अहरोला थाने का हिस्ट्रीशीटर है। फूलपुर कोतवाली पुलिस शनिवार की रात क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि प्राइमरी पाठशाला कौड़िया के पास एक अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए मौजूद है। पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही एक युवक झाड़ी में छुप गया। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। इस पर अपराधी ने पुलिस पर कार्रवाई कर दी। जबकि में पुलिस ने भी गोली चलाई जो गोली बदमाश के पैर में लगी। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया और अस्पताल भेज दिया। घायल बदमाश की पहचान अहरोला थाने के हिस्ट्रीशीटर व डी-34 गिरोह के सक्रिय सदस्य दिलशादए निवासी खुरासो चकशाह काफी थाना कोतवाली फूलपुर के रूप में की गई। गैंगस्टर की कार्यवाही होने के बाद से बदमाश चल रहा था। आईजी अखिलेश कुमार ने कुछ दिनों पूर्व ही इस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी के पास से पुलिस ने गंधका व कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ में घायल अपराधी पर दर्जनभर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

इस बार घटी हज यात्रियों की संख्या, 286 जाएंगे हज पर

आजमगढ़। पिछली बार की तुलना में इस बार कम हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। इन यात्रियों के टीकाकरण और प्रशिक्षण का काम पूरा हो चुका है। 18 और 21 मई को यह लखनऊ से हज के लिए उड़ान भरेंगे। पिछली बार 482 लोग हज यात्रा पर गए थे। इसमें 246 पुरुष और 236 महिला हज यात्री शामिल थे। इस बार हज यात्रियों की संख्या में कमी आई है। कुल 356 लोगों ने आवेदन किया था। 12 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आने के बाद इनकी संख्या 286 हो गई। पूर्व हज ट्रेनर हाजी सलीम अहमद ने बताया कि 14 अप्रैल को शहर के शिब्ली कॉलेज में हज यात्रियों का पहला प्रशिक्षण हुआ। इसके बाद 28, 29 व 30 अप्रैल को क्रमशः शहर के जामा मस्जिद, मदरसा जामिया फैजुल उल्मु शेरवा और दारुल उल्मु अहले सुन्नत मदरसा असरफिया मिसवाहुल उल्मु मुबारकपुर में टीकाकरण के बाद ट्रेनों द्वारा हज यात्रा का प्रशिक्षण दिया गया। इस बार बाबा बीते नौ मई को आठ लोग लखनऊ से हज यात्रा के लिए रवाना हुए। यह लोग आठ दिन मदीना में रुकने के बाद ऊमरा और हज के लिए मक्का जाएंगे। हाजी सलीम ने बताया कि हज ट्रेनों और हज यात्रियों का गुुप बना है। इसमें उनको समय-समय पर जानकारी दी जाती है। अगर किसी हज यात्री को कोई समस्या या जरूरत है तो वह इस गुुप के माध्यम से जानकारी दे सकता है।

आधुनिक नर्सिंग की जनक थीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल

आजमगढ़। किसी बीमारी से उबरने में जितना बड़ा योगदान दवाओं और इलाज का होता है, उतना ही सही देखभाल का भी होता है। इसमें डॉक्टर्स से कहीं बड़ी जिम्मेदारी नर्सों जिनकी हैं, जो 24 घंटे मरीज को देखें रख में लगी रहती हैं। इन्हें सम्मान देने के मकसद से दुनियाभर में हर साल 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। जिला महिला चिकित्सालय में रविवार को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. विनय कुमार सिंह ने ये बातें कहीं। मुख्य चिकित्साधिकारी के अलावा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनय कुमार सिंह ने नाइटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण किया। कैडल लाइटिंग मैट्रन कुसुम सिंह, बरिष्ठ सिस्टर तेतरी देवी ने की। साथ ही सभी नर्सों को उत्कृष्ट एवं समर्पित सेवा का संकल्प दिलाया। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जनक के तौर पर जाना जाता है। उनके जन्मदिवस के मौके पर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी नर्सों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन पल्लवी मिश्रा ने किया। इस अवसर पर डॉ. श्वेता राय, डॉ. रश्मि सिन्हा, डॉ. नमिता चद्रा, डॉ. शैलेंद्र कुमार, नील रतन पांडा, चंद्रकला, ममता श्वेता, स्नेह लता व छाया सहित आदि लोग उपस्थित थे।

स्वास्थ्य महानिदेशक ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर चढ़ाया चीवर

कुशीनगर। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक ने रविवार को कुशीनगर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया। रविवार दोपहर करीब एक बजे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. बृजेश राठौर मुख्य महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे। उन्होंने स्वर्ण आभायुक्त लेटी प्रतिमा की परिक्रमा कर चीवर चढ़ाया। प्रतिमा की तीन मुद्राओं व शोक संतपन स्थिति में आगे की तरफ झुंकी स्थियों की विशेषताओं को भी जाना। यहां से भू-स्पर्श मुद्रा में मांथा कुंवर मंदिर में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए। दोनों स्थलों पर परिसर में उत्खनित प्राचीन भग्नावशेषों की ऐतिहासिकता व प्राचीनता की भी जानकारी हासिल की। इसके अलावा थार कला संस्कृति की दर्शन नमूने में बने थार मंदिर के कलाकृतियों व महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के अर्द्धन किए। यहां भव्य चैत्य को भी देखा, जिसमें बुद्ध की पवित्र धातु अवशेष स्वर्ण कलश में बुलेटप्रूफ सुरक्षा के बीच संरक्षित है। यहां के बाद रामाभार स्तूप पहुंचे। जहां प्रवेश के दौरान पथर पर उत्कर्ण स्थल की संक्षिप्त ऐतिहासिकता को पढ़ा। फिर आगे परिक्रमा कर वापस लौट गए। इस दौरान सीएमओ डॉ. सुरेश पटारिया, डॉ. संजय सिंह आदि मौजूद रहे।

तेंदुआ पकड़ने के लिए लगाया पिंजड़ा

कुशीनगर। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल गायघाट में एक सप्ताह से तेंदुए की चहलकदमी से लोग परेशान हैं। वन विभाग की तरफ से लगातार कॉबिंग के बाद भी वह पकड़ में नहीं आ सका है। रविवार को वन विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए बकरी बांधकर पिंजरा लगाया। जंगल गायघाट गांव के आसपास में पिछले एक सप्ताह से किसी हिंसक जानवर होने की बात सामने आ रही थी। वन विभाग के शुरूआती जांच में यह बात सामने आई थी। रविवार की सुबह वन विभाग के वन दरोगा रामध्यान पांडेय की अगुवाई में टीम गांव पहुंचकर जांच की। खेतों में पर्दचिह्न देखने के बाद तेंदुए के होने की बात सामने आई। सूचना के बाद डीएफओ वरुण सिंह के निर्देश पर रविवार की शाम तेंदुए को पकड़ने के लिए बंदी नारायण महाविद्यालय के पास झरही नाले के पास पिंजड़ा लगाया गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजड़े में बकरी भी बांधा गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सुरेह में जाने से मना किया है। लोगो से अपील की गई है कि आबादी में ही रहे।

दैनिक क्यों न लिखूं सच को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश. उत्तराखंड मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार पंजाब छत्तीसगढ़ राजस्थान आदि सभी राज्यों से रिपोर्टर,जिला ब्यूरो विज्ञापन प्रतिनिधि की सम्पर्क करें-9027776991

राष्ट्रीय आय में मिले लोगों को हिस्सा: अखिलेन्द्र

लखनऊ। राष्ट्रीय आय में लोगों को हिस्सा मिलना बेहद जरूरी है। इससे ही लोगों की गरीबी दूर हो सकती है और क्रय शक्ति भी बढ़ सकती है। अभी देश की प्रति व्यक्ति आय एक लाख सत्तर हजार रुपए प्रतिवर्ष है लेकिन यह पैसा भी लोगों को नहीं मिलता है। देश की बड़ी आबादी दस हजार रुपए से कम में अपनी आजीविका चलाती हैं। जबकि देश का खजाना आम जनता के टैक्स से भरता है। वास्तव में राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट घरानों द्वारा हड़प लिया जा रहा है। राज्य का पूंजी पर नियंत्रण खत्म हो गया है और मोदी सरकार ने देश की प्राकृतिक संपदा एवं सार्वजनिक संपत्ति को कॉर्पोरेट घरानों के हवाले कर दिया है। वर्तमान भाजपा सरकार ने भारत गणराज्य की आर्थिक सम्प्रभुता की भारी क्षति की है। इसलिए यह राष्ट्रीय दायित्व है कि देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में हराया जाए। यह बातें एंजेड लोकसभा चुनाव पर गायत्री लॉज (सोनभद्र) में आयोजित कार्यक्रमता बैठक में मुख्य वक्ता अॉल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहीं। उन्होंने कहा कि



संसाधनों को इकट्ठा किया जा सकता है। यदि देश के बड़े पूंजी घरानों पर यह टैक्स लगे तो देश के हर नागरिक के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था पेंशन और आवास जैसे अधिकारों की गारंटी की जा सकती है। विपक्षी दलों को भी जनता के जीवन की बेहतरी के लिए कॉर्पोरेट पर टैक्स लगाने के सवाल को मजबूती से उठाना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएफएस ने हजारों साल से हमारे देश के बने हुए भैंरी भाव को नष्ट करने का काम किया है। आज पूरे समाज की शांति एवं भाईचारे को खत्म

कर दिया गया है और लोग तनाव के वातावरण में जी रहे हैं। भाजपा आरएफएस की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ आज भारतीयता खड़ी हो गई है और लोग इनके कर्मों का इनको हरकर जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर बड़े पैमाने पर हमला किया गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा असहमति की आवाज को कुचल देने की कोशिश की गई है। यूएपीए जैसे काले कानून में लोगों को सालों जेल में बंद रखा जा रहा है। बुलडोज कर देने, संपत्ति कुर्क कर देने के जरिए बर्बर दमन हो रहा है और देश जेल खाने में तब्दील हो गया है। अतः आज लोकतंत्र की रक्षा की जरूरत है। बैठक को

सर्वोदयी गांधीवादी कार्यकर्ता अरविंद अंजुम ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है लेकिन साथ ही जन मुद्दों को भी मजबूती से उठाना होगा। बैठक की अध्यक्षता मजदूर किसान मंच के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोंड और संवალान आइपीएफ के जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका ने किया। बैठक में लोकगायक मुनेश्वर पनिका ने अपने गीत रखें। बैठक को आईपीएफ के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर, युवा मंच के प्रदेश संयोजक राजेश सचान, उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल अहमद अंसारी, आईपीएफ चंदौली के संयोजक अखिलेश दुबे, मजदूर किसान मंच प्रभारी अजय राय, युवा मंच की जिला अध्यक्ष रूबी गोंड, संयुक्त युवा मोर्चा की संयोजक सविता गोंड, टेकरा मजदूर यूनियन के जिला मंत्री तेजधारी गुप्ता, उपाध्यक्ष तीरथराज यादव, मजदूर किसान मंच चंदौली के संयोजक रामेश्वर प्रसाद, मंगरू प्रसाद श्याम, आईपीएफ जिला सचिव इंद्रेव खरवार, विद्यावती, सुगवंती गोंड, मनोहर गोंड, महेंद्र प्रताप सिंह, बिरहन गोंड आदि ने संबोधित किया।

साउथ सिटी के छात्र अथर्व उपाध्याय ने हासिल किए 98.2: मार्क्स

लखनऊ। सीबीएसई ने सोमवार को 12वीं के बाद 10वीं का भी रिजल्ट जारी कर दिया। इस बार एलपीएस साउथ सिटी के छात्र अथर्व उपाध्याय ने 98.2: मार्क्स हासिल किए हैं। रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल इंदिरा नगर की छात्रा समृद्धि तिवारी ने भी 10वीं में 98.2: मार्क्स हासिल किए। उनके भाई बड़े भाई अथर्व तिवारी ने 12वीं में 96: मार्क्स हासिल किए हैं। उनके घर में दोहरी खुशी का दिन है। भाई आरएलबी स्कूल इंदिरा नगर की ही छात्रा स्तुति त्रिपाठी ने 95.8: और सलेनी सिंह ने 95.4: अंक हासिल किए हैं। स्तुति त्रिपाठी के पिता हनुमंत शरण त्रिपाठी प्रिंटिंग प्रेस में अकॉउंटेंट हैं। मां अनामिका त्रिपाठी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। आगे चल कर आईआईटी बॉम्बे से बोटिक करना चाहती हैं। लखनऊ में इस साल लगभग 220 स्कूलों के 22 हजार स्टूडेंट 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे। 10वीं में 98.2: मार्क्स हासिल करने वाली छात्रा समृद्धि तिवारी ने अपनी सफलता के लिए स्कूल और टीचर को श्रेय दिया है। साथ ही समृद्धि ने अपने भाई से पढ़ाई में मिलने वाले सपोर्ट के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके भाई ने पढ़ाई को लेकर हमेशा मोटीवेट किया है। समृद्धि ने बताया कि केवल टाइम मैनेजमेंट से नहीं सच्चेक्ट के टॉपिक को समझ के पढ़ाई करने से सफलता मिलती है।

मदरसे में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी,ठगी करने वाला गिरफ्तार

लखनऊ। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने मदरसे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी का झांसा देता था। इसके अलावा गलत दरवाजे तैयार कर सक्कारी पैसों का भी गबन करता था। गोरखपुर के रहने वाले एजाज अहमद ने बताया कि एक ही पद, एक ही कामाज और एक ही तारीख में दो व्यक्ति अमजद रजा व शहादत अली ने फर्जी नियुक्ति लेकर सरकारी सैररी का गबन किया है। मदरसा कर्मचारी अनौस अहमद की पिछले साल 20 अगस्त को मदरसे में मृत्यु हो गई थी। खाली पद को भरने के लिए शहादत अली और अमजद रजा का नियुक्ति पत्र मदरसा शिक्षा परिषद को मिला। इसमें तत्कालीन रजिस्ट्रार एसाफ पंडेय का साइन भी था। आरोप है कि शहादत अली के नियुक्ति पत्र पर फर्जी साइन कराया था।

देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए मतदान जरूर करें,

मतदाताओं से सीएम योगी और मायावती ने की अपील

लखनऊ। यूपी में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 संसदीय सीटों पर सोमवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है।

मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखने को मिल रहीं हैं। इससे पहले प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप सिन्हा ने कहा कि इस चरण में 16,334 मतदान केन्द्रों पर बने 26,588 मतदान केन्द्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम योगी मायावती ने मतदाताओं से मतदान के अपील की है। सीएम योगी ने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट कर लिखा, लोकसभा

चुनाव-2024 का आज चतुर्थ चरण है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत और विकास

सात चरणों में हो रहे आमचुनाव के आज चौथे चरण की वोटिंग में अपने वोट के बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग



के लिए, देश की सुरक्षा व सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक-एक वोट निर्णायक है। याद रहे-पहले मतदान, फिर मतदान चर्चा के माध्यम से खुल सकते हैं, सौम्य मायावती ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, देश में लोकसभा के लिए

जबरदस्त महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन व पलायन की विवशता आदि के त्रस्त जीवन से मुक्ति का मार्ग बन सकता है तथा आपकी तरक्की के बन्द दरवाजे सत्ता की मास्टर चाबी के माध्यम से खुल सकते हैं, जैसाकि परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का आह्वान है।

मंडलायुक्त व आईजी ने मतदान केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

लखनऊ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करायें जाने के उद्देश्य से सोमवार को मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब व आईजी तरुण गाबा ने उन्नाव के अलग-अलग मतदान केन्द्रों पर पड़ रहे वोटिंग की मूलभूत व्यवस्थाओं की पड़ताल की। मंडलायुक्त ने जनपद उन्नाव के उच्च प्राथमिक विद्यालय (सोहरामऊ नवाबगंज), प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर, प्राथमिक विद्यालय महनोग, राजकीय बालिका इंटर कालेज एंव आदि विभिन्न मतदेय स्थल के बूथों का निरीक्षण किया साथ ही संबंधित को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंडलायुक्त ने मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदेय स्थलों पर उपस्थित पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारी से कितने प्रतिशत वोटिंग हो गयी है उसकी जानकारी ली साथ ही वोटिंग कर्म वे तेजी लाने के निर्देश दिये। मंडलायुक्त ने जनपद उन्नाव के उच्च प्राथमिक विद्यालय (सोहरामऊ नवाबगंज), प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर, प्राथमिक विद्यालय महनोग, राजकीय बालिका इंटर कालेज-फनेटो अमृत विचार निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतदान के लिए लाईन में लगे विकल्पांग, बुजुर्ग व गर्भवती महिलाओं को लाइन से इतर करके प्राथमिकता पर वोटिंग कराये।

भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए है लोकसभा चुनाव: शर्मा

लखनऊ। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल के समर्थन में आयोजित युवा सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर उपस्थित युवाओं और भाजयुवो के पदाधिकारियों को संबोधित किया। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा फूलपुर लोकसभा का युवा मोर्चा सम्मेलन शहर पश्चिमी विधानसभा के लूकरगंज स्थित एक गेस्ट हाउस में किया गया। मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री एक शर्मा ने कहा कि यह चुनाव भारत को सबसे शक्तिशाली देश बनाने का है। इसके

लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प भी लिया है और उनके इस संकल्प में हम सभी को मिलकर भागीदारी निभाना है। ऊर्जा मंत्री ने युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि दुनिया के तमाम देशों के सापेक्ष भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं और युवा ही इस देश का भविष्य भी हैं। युवा मोर्चा के एक-एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए जुट जाएं। कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों पर घर-घर पहुंचकर एक-एक मतदाता को घर से मतदान केंद्र तक लेकर आएँ और मतदान कराएँ। भाजपा का

युवा मोर्चा पार्टी की रीढ़ है। युवाओं की जब आवाज बुलंद होती है तो पूरी दुनिया में ये आवाज गूंजती है। प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते हैं वह करके दिखाते हैं। इसीलिए तो मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 में उन्हें बहुमत दो तो वह देश से आतंकवाद खत्म कर देंगे और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। 2014 के बाद से देश में एक भी आतंकी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के गुरु हमारी राष्ट्रपति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, यह कांग्रेसियों की मानसिकता है। राहुल

गांधी के अंकल सैम ने भारतवासियों को चमड़ी के रंग के आधार पर बांटकर हंसी उड़ाते हैं। यह कांग्रेस की ओड़ी मानसिकता का प्रमाण है। कोई कांग्रेसी भूल से भी राम का नाम ले ले तो उसका अपमान करके पार्टी से निकाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राम के नाम से नफरत करने वाली पार्टियों समाजवादी और कांग्रेस को इस बार देश के युवाओं का सौलभ पूरी तरह से सफाया कर देंगे। कांग्रेस ने हमेशा से राष्ट के लिए किए जा रहे अच्छे कामों में अड़ी लगाए हैं।

भर्ती के इंतजार में ओवरएज हो रहे बेरोजगार

2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, पेपरलीक ने बिगाड़ा आयोग का कैलेंडर

लखनऊ। सरकारी नौकरी पाने की चाहत में पूरे प्रदेश से प्रयागराज आने वाले युवा पढ़ाई-लिखाई के बाद भर्ती के इंतजार में ओवरएज हो रहे हैं। हजारों छात्र आवेदन किए बगैर ही ओवरएज होने के कारण नौकरी की रस से बाहर हो रहे हैं। सालों 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक, सहायक प्राचकीय विद्यालयों और 331 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य आदि में नियुक्ति होनी है। अभी आयोग का कामकाज कब शुरू होगा इसे कोई सिपाही भर्ती के आवेदक सालों बाद फिर से मायूस घर बैठे हैं। दूसरी ओर तमाम प्रयासों के बावजूद सात साल बाद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सक्रिय नहीं होने के कारण लाखों युवाओं के सपनों को पंख नहीं लग पा रहे। उत्तर प्रदेश उच्चतर अध्यापक प्राचकीय विद्यालय -

2018,प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज - 2020,असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विलय के लिए पहली बैठक 19 जुलाई 2017 को लखनऊ में हुई थी। उसके करीब सात साल बाद चयन बोर्ड की बिल्डिंग पर आयोग का बोर्ड टंगने

के साथ 12 सदस्यों की नियुक्ति हुई लेकिन अब तक नियमित अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव की नियुक्ति नहीं इस आयोग के माध्यम से ही बेसिक शिक्षा परिषद के डेढ़ लाख से अधिक स्कूलों के अलावा 500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक, सहायक प्राचकीय विद्यालयों और 331 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य आदि में नियुक्ति होनी है। अभी आयोग का कामकाज कब शुरू होगा इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।आखिरी बार कब आई, कौन सी भर्ती बताते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती -2018,सहायक अध्यापक प्राचकीय विद्यालय -

2013,वन दरोगा - 2018,बोरिंग टेक्नीशियन -2019 और वन रक्षक की भर्ती 2018 में निकली थी। कई भर्तियां विवाद के कारण पूरी नहीं हो सकी हैं। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती तीन साल में पूरी नहीं हुई है। हाईकोर्ट के आदेश ने पर 17 अक्टूबर 2021 को भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई। नवंबर 2021 को घोषित परिणाम हाईकोर्ट के आदेश पर सितंबर 2022 को संशोधित किया गया। एडेड माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 भी विवादों में फंसी है। प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2013 में प्रक्रिया शुरू की। लंबी लड़ाई के बाद चयन बोर्ड ने नवंबर 2022 के बीच 632 में से 581 पदों का परिणाम घोषित किया था। इनमें से तकरीबन आधे शिक्षक ही कार्यभार ग्रहण कर सके थे कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चयन प्रक्रिया में नौ साल का समय लगने पर

फरवरी 2023 में भर्ती प्रस्ताव कर दी।सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों में 2019-1,65,807,2020-1,74,417,2021- 1,93,093,2022-1,63,946 और 2023 में 1,72,787 युवा शामिल हैं प्रदेश में शिक्षकों के 5180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एडेड कॉलेजों में असि. प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के 2022 में आवेदन लिए थे। इसके लिए लगभग एक लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। अब यह भर्ती नए आयोग से पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3539 और प्रवक्ता पीजीटी के 624 कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए जून 2022 में आवेदन लिए थे। इन पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यह भी अब नए आयोग से होनी है प्रदेश के सहायता प्राप्त हाईस्कूल एवं

इंटर कॉलेजों से संबद्ध प्राइमरी और संस्कृत विद्यालयों में भी सालों से नियमित शिक्षक भर्ती नहीं हो सकी है। 973 संस्कृत विद्यालय एवं महाविद्यालय में रिक्त सहायक अध्यापकों के 978 और 573 संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में खाली शिक्षकों के सैकड़ों पदों की भर्ती का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। 1994 से माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। दो साल पहले सचिदा पर शिक्षकों को रखा गया था।परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 50 हजार से अधिक पद खाली हैं। सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रििम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उस यूपी के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51112 पद खाली थे। उसके बाद हर साल औसत छह-सात हजार शिक्षकों की ही सेवानिवृत्ति मान ली जाए तो तीन साल में करीब 20 हजार और पद खाली हो गए। 2018 के बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

संक्षिप्त खबरें

दुबग्गा मंडी में आढ़तियों और व्यापारियों ने शत प्रतिशत मतदान का संकल्प लिया

लखनऊ। नवीन कृषि उत्पादन मण्डी, दुबग्गा में व्यापारी, पटरी दुकानदारो, किसानो और पल्लेदारो ने पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता और वरिष्ठ समाजसेवी अवधेश नारायण थे। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कम मतदान प्रतिशत पर चिंता व्यक्त की। व्यापारियों और श्रमिकों के हित में सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारीयें भी दी। तथा व्यापारी मुईन अहमद की मांग पर दुबग्गा मण्डी के विस्तार के लिए मण्डी समिति की ५३ एकड़ भूमि का आम चुनाव के उपरान्त जल्द से जल्द नवनिर्माण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि अगर कोई अधिकारी व्यापारी का शोषण करता है तो वह एक सप्ताह से अधिक अपने पद पर रुक नहीं पाएगा। इससे पूर्व आयोजक व्यापारी निर्भय गुप्ता और विनय गुप्ता ने मुख्य अतिथि मनीष कुमार गुप्ता को श्रीराम मन्दिर का प्रतीक मोमेंटो तथा पुष्प गुच्छ भेंट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर व्यापारी मुईन अहमद, राम नरेश, शमशुद्दीन, चंद्रिका प्रसाद आदि ने मंडी की समस्याओं से मुख्य अतिथि को अवगत कराया।

खेलो इंडिया से अब जोड़े जायेंगे बेसिक स्कूलों के खिलाड़ी

लखनऊ। बेसिक स्कूलों के बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। बच्चों का एसेसमेंट टेस्ट लेने के बाद खेलो इंडिया एप पर उनका डाटा अपलोड किया जाएगा। इसमें स्पোর্ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की भी मदद ली जाएगी। बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार खेलों से जोड़ा जायेगा।शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि बच्चों का एसेसमेंट टेस्ट प्रारंभ करके खेलो इंडिया एप पर अपलोड करें। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक तैनात नहीं है तो खेलों में रुचि रखने वाले शिक्षक को नामित कर यह काम कराया जाए। यदि इस काम को संपन्न करने में समस्या आती है तो जनपद वार,ब्लॉक वार साई से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर की मदद ली जाए। खेल विभाग के अधिकारियों, खेल शिक्षकों, मास्टर ट्रेनर का पूरा सहयोग लिया जा सकता है।इस दौरान सभी बच्चों का पूरा विवरण एम्प्ले ल शीट पर विद्यालय स्तर से ही तैयार करने का निर्देश दिया गया है।बड़े खिलाड़ियों से छात्रों को कराएं रूबरू पत्र में कहा गया है कि विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक की सभी खेल प्रतियोगिताओं में खेल संगठन के विशेषज्ञ और खेल विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए। अपने क्षेत्र के अच्छे खिलाड़ियों को स्कूल में आमंत्रित करें। छात्रों को उनसे रूबरू कराएं। इससे छात्रों को प्रेरणा मिलेगी।बेसिक शिक्षा निदेशक ने साफ कहा है कि बच्चों को मात्र खेल रेली के लिए तैयार करने की जगह खेलों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। कक्षा एक से आठवीं तक का प्रत्येक बच्चा अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी खेल से अवश्य जोड़ा जाये। प्रत्येक बच्चे को खेलने का अवसर मिलना चाहिए। इंडियनजुअल इंस्टें में प्रतिभाग के व्यक्तिगत प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखा जाए। यह उपलब्धि बच्चों के पूर्ण विवरण वाली सीट में अंकित भी होनी चाहिए।

लखनऊ के विबग्योर स्कूल में बम की सूचना से

मचा हड़कंप, खाली कराया गया पूरा स्कूल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित विभ्योर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बात की सूचना स्कूल की प्रिंसिपल ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बम स्वाड के साथ पहुंची। इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने एसएमएस भेजकर पेरेंट्स को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पेरेंट्स स्कूल की तरफ दौड़े और अपने बच्चों को स्कूल से लेकर गए। डर की वजह से पूरा विबग्योर स्कूल खाली करा दिया गया है। मामला जिले के विराम खंड-2 में स्थित विबग्योर स्कूल है। जहां अचनाक बम की सूचना से हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल ने इस बात की जानकारी एक मैसेज के जरिए बच्चों को पेरेंट्स को दी। सूचना मिलते ही पेरेंट्स बच्चों को लेने स्कूल पहुंचे। जिससे स्कूल के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। फिलहाल जांच जारी है। विबग्योर स्कूल की प्रिंसिपल ने मैसेज जारी किया था। जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि स्कूल में बम की धमकी के कारण आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को यथाशीघ्र स्कूल से ले जाएं। कृपया अपना वाहक कार्ड साथ रखें। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल आज बंद किया जा रहा है। जिसके बाद प्रबंधन ने स्कूल बंद करके पूरे परिसर की चेकिंग करवाई। सभी शिक्षक और शिक्षणतर कर्मचारियों को भी छुट्टी दे दी गई है। बता दें कि स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी की वजह से सब सन्तप्त हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, पीजीआई क्षेत्र में एलपीएस स्कूल में भी बम की सूचना मिली है। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी मिला नहीं है।

रक्षामंत्री की जीत के लिए कश्मीरी पंडितों ने निकाली प्रभात फेरी

लखनऊ। राजधानी में रक्षामंत्री की रिकॉर्ड मतों से जीत के लिए कश्मीरी पंडितो ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को मालवीय नगर वार्ड में सुबह प्रभात फेरी निकली गई। समूह के ऋषि बालोतरा कश्मीरी पंडित ने बताया कि प्रभात फेरी में आए हुए लोगों ने राजनाथ सिंह को 5 लाख से अधिक वोटो से जिताने का संकल्प लिया है। इस मौके पर नमिता साहनी, विजय अरोड़ा, रमेश चंद्र मल्होत्रा एवं ओझा साहब ने सम्मिलित होकर यह संकल्प को पूरा करने की शपथ ली।

हल्की बूढ़ाबांदी के बाद निकली धूप

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में सोमवार को मौसम बदल गया। सुबह तेज धूप रही। 9 बजे बाद बादल छा गए। ठंडी हवा के साथ कुछ इलाकों में बूढ़ाबांदी हुई। लगभग आधे घंटे बाद फिर से तेज धूप हो गई। दोपहर तक गर्म हवाएं चलने लगीं। लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 19 जिलों में आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में ओले पड़ने का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक उमस की मार झेलनी पड़ेगी। 3 दिन के बाद फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ठंडी हवाएं आ रही हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव गंगा के मैदानी इलाकों पर है। राजस्थान के थार मरुस्थल से आने वाली गर्म हवाएं थमी हुई हैं। इस वजह से लगातार मौसम में बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। दिन में थोड़ी उमस बढ़ सकती है, लेकिन मौसम सुहाना रहेगा। हवाओं की रफ्तार तेज बनी रहेगी। मंगलवार से फिर हवा कमजोर पड़ सकती है। तापमान 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और गर्मी भी बढ़ेगी। लखनऊ के आसपास के जिलों उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली में बारिश और आंधी की संभावना नहीं है।

FOMO and depression

Navigating the mental health obstacle by understanding the relationship between the two

The fast-paced, hyper-connected world, though has eased human connections and commerce, it has also induced the pressure among all to succeed while in a rat race. It has led a majority of individuals to feel the fear of missing out (FOMO). It is observed first-hand the toll that FOMO can take on one's mental health, often leading to devastating conditions such as depression. Let's dive deeper into understanding the complicated relationship between FOMO and depression and offer actionable strategies to transform FOMO into the joy of missing out (JOMO).

What is FOMO

To begin with, let's dissect what FOMO truly means. FOMO is not merely a short-lived sensation of envy or restlessness. It is a profound fear of being left out or excluded from rewarding experiences or opportunities that others seem to be enjoying. With the rising use of social media platforms, where curated snapshots of seemingly perfect lives are incessantly displayed, FOMO has found the ideal ground to flourish. Numerous studies have highlighted the detrimental effects of excessive social media usage on mental well-being, with FOMO emerging as a significant contributing factor.



Furthermore, the never-ending pursuit of success in the highly competitive landscape worsens the detrimental effects of FOMO. Ambitious individuals often find themselves trapped in a continuous cycle of comparison, persistently measuring their achievements against those of their peers. This constant comparison not only fuels feelings of insufficiency and self-doubt but also intensifies the fear of missing out on opportunities for advancement or recognition.

As a result, many individuals in India find themselves grappling with symptoms of depression, with persistent feelings of sadness, hopelessness, and disinterest in activities that they once enjoyed. Research from several acclaimed international as well as national institutes suggests that individuals who experience chronic feelings of FOMO are at a heightened risk of developing depression over time.

Getting over FOMO

So, how can we break free from the suffocating grip of FOMO and reclaim our mental well-being? The key lies in cultivating the joy of missing out—the thoughtful choice to prioritize our well-being and values over external validation or societal expectations. Here are some practical tips to help alleviate the burden of FOMO:

Practice mindfulness: Engage in mindfulness practices such as meditation or deep breathing exercises to nurture present-moment awareness and reduce contemplation about past events or future uncertainties.

Set boundaries: Establish boundaries around your social media usage and learn to disconnect from the constant bombardment of notifications and updates. Designate specific times for checking social media and resist the urge to compare yourself to others.

Focus on gratitude: Encourage a mindset of gratitude by reflecting on the blessings and accomplishments in your own life, rather than gripping on what others have or achieve.

Define your success: Re-evaluate your definition of success and identify goals that are aligned with your values and aspirations, rather than external markers of achievement or validation.

Practice self-compassion: Stop being hard on yourself. Be kind and compassionate towards yourself, recognize that it's okay to not always be on top of everything or to miss out on certain opportunities. Hold imperfection as a natural part of the human experience.

To conclude, the deceptive nature of FOMO poses a significant threat to our mental health and well-being, particularly among go-getters navigating the complexities of modern life. By understanding the relationship between FOMO and depression and adopting proactive strategies to alleviate its impact, we can regain control over our lives and nurture a sense of fulfillment grounded in authenticity and self-compassion. Remember, it's not about chasing after every momentary opportunity but rather finding satisfaction and joy in the moments we choose to squeeze fully, free from the restraints of FOMO.



Curd

Hair conditioner: This dairy product is rich in protein, potassium, calcium, magnesium, and vitamin A, which can contribute to hair growth. It also helps with dandruff, frizzy hair, and rough ends as it hydrates and nourishes the scalp. Apply curd to your hair like a mask and leave it in for 15-20 minutes before rinsing. You can also add coconut oil or ghee to amplify its benefits.

Face mask: The moisturizing properties of curd can also be used to soften dry skin. Its cooling properties also help the skin recover from hot summer days. Mix some curd and besan (gram flour) in a bowl and apply it to your face and neck. Wash after 15 minutes or after it dries.



Banana Peel

Leather polisher: If you're looking to polish your leather shoes or bags, a cheap, easy, and environmentally friendly way is to use the inside of a banana peel, as it contains potassium and natural oils that will make your leather items shine bright like a diamond! It also contains enzymes that help in removing odour and breaking down stains from shoes. Just use the inside of the peels to rub your leather items. Finally, use a clean cloth to wipe them.

Water Purification: Banana peels contain sulphur and nitrogen that work similar to the magnets in water purifiers. All you have to do is grind some roasted banana peel and mix it with the contaminated water for 10 minutes. The resultant solution is approximately 60% less contaminated.

When foods are NOT eaten

From homemade beauty treatments to soothing sore joints to crockery maintenance, your boring kitchen ingredients can be used for a lot more than just their culinary roles

Everyone loves a good life hack. You'll be surprised to know how many of them exist within the treasury of your kitchens. Natural spices and oils can have many unconventional uses that can vivify your daily lives. So bid farewell to chemicals and embrace simplicity as we explore some of these hidden gems together.



Turmeric

Dyeing clothes: Affordable and readily available, the root of the golden spice can be used to dye clothes and give them a taste of vibrancy! You can use it over already coloured clothes to obtain some gorgeous shades. Submerge the cloth in hot water along with turmeric, baking soda, or vinegar for an hour. Then rinse off the excess powder from the cloth and let it air-dry.

Skin care: The energetic turmeric has anti-inflammatory properties that can be incorporated into your skin care routines to even out dull skin. Mix turmeric powder with honey to get a paste-like consistency. Apply it all over the face for 10-15 minutes, and then wash it off with a wet towel. Many people use it to treat acne, psoriasis, and eczema as well.



Tamarind

Cleaning brass and copper utensils: The citric acid content is very high in tamarind pulp. So, the basic layer of oxidation that develops on the utensils as a result of their interaction with air and moisture is neutralized by this acid and brings-back its luster. Cover the utensil's surface uniformly with the pulp. Next, lightly scrub the area with a soft cloth or sponge, applying gentle pressure, and rub until the tarnish begins to fade. Let the utensil sit for 5-10 minutes, then thoroughly rinse it with water to get rid of any residue.

Adhesive for arts and crafts: Tamarind seeds have inherent adhesive properties. They can provide your kids with an engaging new approach to working on their masterpieces. To make the seeds into a consistency similar to glue, powder them and combine them with water.



Mustard Oil

Treating joint pain: The oil's anti-inflammatory qualities can aid in reducing arthritis-related pain and discomfort. It relieves inflammation and stiffness in the joints. To increase your mobility, warm up some oil and gently massage it over the affected area. Wash it off with warm water after 30 to 40 minutes.

Teeth whitening: As mustard oil contains antibacterial qualities, it has been used for decades to treat dental problems. Combine a teaspoon of salt with some mustard oil to form a mild abrasive. After applying it to your teeth, wait for five minutes. Then simply use lukewarm water to rinse.

Mint leaves

Insect repellent: The fresh, zingy smell that lights up our summer drinks is loathed by insects and thus can help you keep them away. Its strong menthol scent makes mint leaves effective and, of course, environmentally friendly. Take a handful of mint leaves and crush them to release their aroma. Place them in various locations around the house. Alternatively, plant mint in your gardens or use mint oil spray.

Treating Sunburns: Mint is known for its cooling effects and can be used to soothe sunburns. Add crushed-up mint leaves to some green tea and let it cool down before pouring it on the affected area and massage it in. Make sure to be gentle.



GURU GYAN

Sadhguru



When people hear the word "self-realization," maybe it conjures up images in their minds of some Himalayan cave. I don't want to talk about anything that is not yet in your experience because the moment we talk about it, you will lose touch with reality. If you start believing realities that are not yet in your experience, you will lose ground in the reality you are in.

Unfortunately, this is what has happened in the world in the name of spirituality and religion. God is not an enabling factor, God is unfortunately a disabling factor in most people's lives because they believe God is going to take care of their food, their survival, their health, and their business.

So, let us not talk about knowing yourself in some mystical way or another dimension. Let us talk about knowing yourself in the most practical way that we can look at.

If you want to work with anything, for example let us say you want to drive your



motorcycle or car. The better you grasp what the machine is, the more control and freedom it gives you as to what you can do with it. Whether you are using your car,

computer or even your cell phone, the more you know about it the better you can use it. Or even with the people around, your own family, friends or people who work with

WHAT DOES SELF-REALIZATION MEAN?

you, the better you know them the better you can deal with them. Whatever you wish to deal with, the more you know about it, the better you can handle it.

Why is it that you don't see this about yourself? The more you know about this piece of life, which you refer to as "myself," the better your grasp over this and the better your ability to handle it, which definitely gives you more access to life. In other words, self-realization is a way of knowing this piece of life in a much better way than the way you currently know it.

You may know something about your thought process, your personality and your emotions – you may have been psycho-analyzed already – but you still do not know anything about the nature of this life – how this happens, where it comes from, where it goes, what is its nature.

If you do not know anything about the machine that you are handling, you will handle it by accident.

What do you know about this piece of life? When you live accidentally and exist

here as an accident, you are a potential calamity. Whether you actually become a calamity or not, you are a potential calamity. If you live here as a potential calamity, to be anxious and fearful is very natural, and that is how life is happening.

Do not think of self-realization as some weird thing that some yogi does in a Himalayan cave. It is not about that. It is just that if you want to live your life with a certain ease, you have to know this piece of life. If you do not explore and know this, how will you live with ease? When there is no ease, joy is out of question. When there is no ease and joy in your life, questions will come up, "To be or not to be?"

People think this is a very intelligent question. This is the most idiotic thing you can ask yourself. This life process is such a phenomenon, but you are asking, "To be or not to be?" Such silly questions have risen in the mind because people have not realized the immensity of what it means to be human. Self-realization is not a choice; it is a must.

(Excerpted from Mystic's Musings. Not for the faint-hearted, this book deftly guides us with answers about reality that transcend our fears, angers, hopes, and struggles. Sadhguru keeps us teetering on the edge of logic and captivates us with his answers to questions relating to life, death, rebirth, suffering, karma, and the journey of the Self.)

PERFECT TIMING

Actress opens up on why she didn't pursue Hindi film industry

ROHIT BHATNAGAR

Actress Jyotika, who is soon to be seen in *Srikanth* alongside Rajkumar Rao, feels that it is the best time to work in Indian cinema. In an exclusive interview with *The Free Press Journal*, the actress talks about OTT invention, why she diverted her career to South, the kind of films she wants to do, and more. Excerpts:



A still from *Srikanth*

How it feels to be actively working in Hindi films now?

It feels great and the best change that has happened is that North and South has blended. I have seen great talents in both the regions and cinema couldn't have been better than this. I have come back in the best time.

Back in the 90s, South Indian films were released dubbed in Hindi in the Northern belt. Do you feel the amalgamation is more social media driven?

I think, it has nothing to do with the social media rather it is because of OTT invention. When we travel to Bhutan or Nepal, it's very surprising for me and Suriya to see that people have seen every South Indian film. I don't know the norms of social media but I think, audiences watch anything that entertains them.

Go on...

Sometimes, Bollywood bubble becomes too fancy but when people see something rooted and relatable, they appreciate it.

How far Bolly-

wood has changed since your debut in 1996 with *Doli Saja Ke Rakhna*?

I was never a part of Bollywood. I don't know how it has changed but I feel, the old formulas are still existing that film has to run (laughs). I didn't get work post my debut film so I moved down South and made my career out there. There were no roadblocks, there were no roads only for me to go as my film didn't make any noise.

Do you still feel Friday jitters?

Of course, we all do have jitters. Unless, you had done a project for money but if you want people to see your work or the film, you do feel fearful just before the release.

Since now you have comeback to Hindi industry, what kind of films are you looking to associate with?

I am looking for films with title word S (laughs). *Shaitaan* and *Srikanth* worked in my favour: I am honestly looking for that three scene role in a film where women walk out with their head high. I am in mid 40s and women are a lot more than the way they are portrayed on-screen.

People say that South industries are far more professional than Bollywood. Your thoughts?

On the contrary, both *Shaitaan* and *Srikanth* were shot faster than a South film. I am quite taken aback by the way they wrapped up the film. Professional wise, both the regions are at par: Humility wise, yes, Southern people are humble.

Baadshah of Bollywood shares update on his next film



'I FELT I CAN REST A LITTLE'

CJ DESK

Bollywood superstar Shah Rukh Khan has revealed that he is going to start shooting for his next film in June 2024. Shah Rukh, who delivered hits like *Jawan*, *Pathaan* and *Dunki* in 2023, believes that he can 'rest a little' before resuming work on his upcoming projects.

During a conversation on a sports TV channel on Friday, Shah Rukh shared an update on his next project. The actor said, "I felt I can rest a little. *Teen filmlein kar chuka hoon*, all of which required a lot of physical work. I told the Kolkata Knight Riders team that main matches *ko aaunga* this time. Fortunately, *meri shooting ab August main hain, ya July...* we plan in June, *toh June se shuru ho jayegi*. So, I would love to come to all the home matches because coming to Kolkata feels like coming home to me."

He added, "It's important for me to be here, so I don't schedule according to my work, but I try my best to be here for all the matches."

A video of his conversation has also been doing the rounds on social media. However, the actor has not revealed the name or other details about his upcoming project.

Meanwhile, not just Shah Rukh but his younger son AbRam Khan has also been stealing all the limelight with his cute antics during the IPL matches.

On the film front, Shah Rukh was last seen on the big screens with Taapsee Pannu in Rajkumar Hirani's *Dunki*. If media reports are to be believed, the actor will next share screen space with his daughter, actress Suhana Khan, in *King*. However, there has been no official confirmation from the makers yet.

Dutch Delight

Actress shares gorgeous photos from her recent Amsterdam trip



CJ DESK

Taapsee Pannu, who has been grabbing eyeballs ever since marrying her long-time boyfriend Mathias Boe, recently posted a series of pictures on her social media.

Taking to her Instagram handle on Saturday, Taapsee shared the pictures and with a caption that read, "My kind of Amsterdam. Canal, cycling and sibling..."

In the photos, Taapsee can be seen wearing a long white jacket with a black outfit, while her sister Shagaun wore a white winter wear.

Taapsee Pannu married her longtime boyfriend and Badminton player Mathias Boe in Udaipur in March this year in the presence of close friends and family members.

Among the attendees were Taapsee's *Dobaaraa* and *Thappad* co-star Pavail Gulati, writer Kanika Dhillon as well as close friend and director Anurag Kashyap.

Leaked footage from her wedding showed Taapsee in a red bridal suit, walking down the aisle alongside her sister and friends and dancing to *Kothe Te Aa Mahiya*.

Taapsee and Mathias have not shared pictures from their wedding festivities on social media yet.

On the work front, Taapsee will be next seen in *Phir Aayi Haseen Dillruba* and *Khel Khel Mein*.

Directed by Mudassar Aziz, *Khel Khel Mein* features Akshay Kumar, Vaani Kapoor, Ammy Virk, Fardeen Khan, Aditya Seal, and Pragya Jaiswal in significant roles.

The movie revolves around a group of friends reuniting after a long time, leading to comical mishaps.

'*Phir Aayi Haseen Dillruba*' is a sequel to '*Haseen Dillruba*', which premiered exclusively on the OTT platform in July 2021 and gathered positive reviews from the audience and starred Vikrant, Taapsee Pannu and actor Harshvardhan Rane in the lead roles. In the second part, Taapsee will be seen sharing screen space with Vikrant and Sunny Kaushal.



Dating Again?

CJ DESK

Sara Ali Khan's London vacation photos are going viral on social media. The actress shared some amazing pictures with her friends. What's catching the

attention of fans are some unseen viral pictures on Reddit from her holiday.

In one of the viral pictures, Sara can be seen sitting with some friends, along with her ex-boyfriend Veer Pahariya. The note attached to it stated, "Are Sara Ali Khan and Veer Pahariya coming back together. They are holidaying with friends in London".

As soon as the picture went viral, fans speculated that the two are back together. Even, Sara Ali Khan shared some pictures which spotted the two of them together. Veer Pahariya is the grandson of former Chief Minister of Maharashtra Sushil Kumar Shinde and son of Mumbai-based businessman Sanjay Pahariya. He is also the brother of Shikhar Pahariya, who is dating actress Janhvi Kapoor.

CAUGHT ON CAM

Celebs were snapped as they were out and about in Mumbai



Sharman Joshi and Prerana Chopra strikes a pose at *Undekhi Season 3* screening

Alaya looks pretty during the promotion of *Srikanth*

Handsome hunk Varun Sood poses for shutterbugs at *Undekhi Season 3* screening

Rajkumar Rao looks cool in smart formals as he snapped during the promotion of *Srikanth*

Filmmaker SS Rajamouli spotted outside a restaurant in Bandra